



# नौकरी वालों की मौज

- रोजगार सृजन, छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन पर जोर
- किसानों को तोहफा, युवाओं के लिए रोजगार
- मध्यम वर्ग को कर में मामूली राहत

## बजट एक नजर में

### युवा परिणामों से नसीहत

कंपनियों रोजगार दें, वेतन व इंपीएफ का कुछ खर्च सरकार उठाएगी. कोरोना के दौरान ऐसी स्कीम का प्रयोग हुआ था, सफलता सीमित रही थी.



### रोजगार के लिए तीन स्कीम

फॉर्मल सेक्टर में उद्योगों को रोजगार देने पर प्रोत्साहन. पहली बार नौकरी पाने वालों के वेतन के कुछ हिस्से का बोझ सरकार उठाएगी. नई नौकरी वालों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी मिलेगा. अतिरिक्त रोजगार देने वाले उद्योगों के कर्मचारियों का इंपीएफ सरकार देगी.

### गठबंधन का दबाव

गठबंधन के भागीदार वाले राज्यों बिहार व आंध्र प्रदेश को करीब 50,000 करोड़ रुपये की सीधी मदद. अन्य स्कीमों में आवंटन अलग से. बिहार को पैकेज नहीं मगर सड़क पुल हाइवे, बुनियादी के लिए 26000 करोड़, बिहार को बाढ़ प्रबंधन के लिए 1500 करोड़ और मिलेगा. बिहार में मंदिरों के विकास के बजट लिए करीब 37000 करोड़ रुपये की सीधी घोषणा. आंध्र प्रदेश को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 15000 करोड़, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और पिछड़े इलाकों के अलग से मदद.

### एनपीए बढ़ने का डर


मुद्रा लोन की सीमा दस लाख से बढ़ा कर 20 लाख कर दी गई है. इससे बैंकों का एनपीए बढ़ने का डर है.

### गांवों में निवेश

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथ चरण आया. इससे गांवों में निवेश बढ़ने की संभावना है.

### इनकम टैक्स

नई इनकम टैक्स रिजिम में दो रियायतें दी गई हैं. स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है. आम करदाताओं को 17500 की रियायत मिलेगी.



### कैपिटल गेन्स

लांग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को सीमा 10 से 12 लाख कर दिया गया है. लेकिन टैक्स की दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है. इसके साथ ही कुछ निवेशों पर शॉर्ट टर्म टैक्स 20 प्रतिशत किया गया है.

### 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान ग्रामीण विकास के लिए

## मोदी 3.0 का पहला आम बजट

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश आम बजट में आयकर मोर्चे पर मध्यम वर्ग एवं नौकरीपेशा लोगों को राहत देने और अगले पांच साल में रोजगार सृजन के लिए दो लाख करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की. इसके साथ ही उन्होंने सतारुद्ध गठबंधन में शामिल सहयोगी दलों के शासन वाले राज्यों - बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कई परियोजनाओं का भी ऐलान किया. भाजपा को लोकसभा चुनाव में अपने दम पर बहुमत नहीं मिलने के लिए ग्रामीण असंतोष और बेरोजगारी को जिम्मेदार माना गया है. सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया. वहीं आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बजट में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है. यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 प्रतिशत है. सीतारमण ने अपना सातवां और नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए स्टार्टअप में सभी श्रेणी के निवेशकों के लिए 'एंजल कर' समाप्त करने की घोषणा की. जब कोई गैर-सूचीबद्ध या स्टार्टअप कंपनी शेयर जारी कर पूंजी जुटाती है और उसका मूल्य कंपनी के उपयुक्त बाजार मूल्य से अधिक होता है, तब उस पर 'एंजल कर' लगाया जाता है. बजट में मोबाइल फोन एवं सोने पर सीमा शुल्क में कटौती की गई है और पूंजीगत लाभ कर को सरल बनाया गया है.



## आम बजट 2024-25

### ₹255393000000

### रेलवे के लिए सरकार ने खोल दिया खजाना, अब तक का सबसे बड़ा बजट

- रेलवे के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट आवंट
- सरकार ने विकास के लिए 2.55 लाख करोड़ रुपये दिए
- चालू वित्त वर्ष में 2500 जनरल कोच के निर्माण का लक्ष्य



## नई कर प्रणाली में बदलाव

### 17.5 हजार तक की होगी बजत

पहले	अब	टैक्स की दर
3 लाख	3 लाख	00
3 से 6 लाख	3 से 7 लाख	5%
6 से 9 लाख	7 से 10 लाख	10%
9 से 12 लाख	10 से 12 लाख	15%
12 से 15 लाख	12 से 15 लाख	20%
15 लाख से ऊपर	15 लाख से ऊपर	30%

## व्या सस्ता-व्या महंगा

### ये चीजें होंगी सस्ती

चमड़े के जूते, कपड़े, सोना-चांदी, तांबा, लोहा-स्टील, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, कैसर दवा, प्लेटिनम, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, समुद्री भोजन, क्रूज यात्रा, फुटबियर और सोलर सेट्स.

### इनके बढ़ेंगे दाम

सिगरेट, हवाई जहाज से यात्रा, प्लास्टिक का सामान, दूरसंचार उपकरण और पेट्रोकेमिकल.

## झारखंड की झोली में क्या आया

निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए नॉर्थ ईस्ट राज्यों के विकास के लिए पूर्वोदय योजना की भी घोषणा की है. इसका सीधा लाभ झारखंड और यहां के आदिवासियों को मिलेगा. निर्मला सीतारमण के बजट में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना की घोषणा की गयी है. झारखंड समेत इन सभी राज्यों का विशेष राज्य की तरह विकास किया जाएगा. यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतुष्टि कवरज को अपनाएगी. इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा. रेल परियोजनाओं को मिला विस्तार : राज्य की पुरानी रेल परियोजनाओं के विस्तार का ऐलान

वित्त मंत्री ने किया 12 इंडस्ट्रियल पार्क का ऐलान



## बजट की मुख्य बातें

- 2 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ युवाओं के लिए 5 स्कीम. 5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को होगा लाभ. रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए 3 स्कीम.
- हर नए कर्मचारी के लिए कंपनियों को 2 साल तक हर महीने 3-3 हजार रुपए का रिजर्वमेंट मिलेगा. इससे 50 लाख लोगों को लाभ होगा.
- कृषि व उससे जुड़े सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान. किसानों और उनकी जमीनों को मिलेगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रा का फायदा. फार्मर एंड लैंड रजिस्ट्री के दायरे में आएं 6 करोड़ किसान.
- फॉर्मल सेक्टर में वर्कफोर्स से जुड़ने वालों को डाइरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के तहत 15 हजार रुपए तक का फायदा दिया जाएगा. इसके लिए 1 लाख रुपए तक की सैलरी वाले कर्मचारी पात्र होंगे. इससे 2 लाख से ज्यादा युवाओं को लाभ.
- विकसित भारत का इंजन बनने के पूर्वोत्तर राज्य. बिहार को मिले 3 एक्सप्रेस-वे. 26 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनेंगी नई सड़कें. गया में बनेगा औद्योगिक हब.
- मैन्युफैचरिंग सेक्टर में रोजगार सृजन. ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन के हिसाब से फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को मिलेगा प्रोत्साहन. 30 लाख युवाओं को होगा फायदा.
- मुद्रा लोन की लिमिट बढ़ाई गई. अब इस स्कीम में 20 लाख रुपए तक के लोन मिलेंगे.

## बिहार, आंध्र और मिडिल वलास की बल्ले-बल्ले

बिहार, आंध्र और मिडिल वलास की बल्ले-बल्ले

## मोदी 3.0 की नौ प्राथमिकताएं

1. कृषि में उत्पादकता और लचीलापन
2. रोजगार और कौशल
3. समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
4. विनिर्माण और सेवाएं
5. शहरी विकास
6. ऊर्जा सुरक्षा
7. बुनियादी ढांचा
8. नवाचार, अनुसंधान और विकास
9. अगली पीढ़ी के सुधार

## पहली नौकरी मिलने पर सीधे खाते में आएंगे 15 हजार

पीएफ भी सरकार देगी 2.1 करोड़ युवाओं के लिए बड़ा ऐलान

### बजट रोजगार वाला

- पहली नौकरी पर इंपीएफओ में सीमा वित्त में 1.5 हजार जमा कराए जाएंगे
- 500 कंपनियों में 12 महीने की इंट-नॉरिंग का अवसर
- पांच हजार एप्रिमाइड का इंट-नॉरिंग का अवसर
- पांच साल में एक करोड़ युवाओं को मिलेगा फायदा

## किस मद में कितनी राशि

रक्षा (1000 करोड़ कम)	फसल बीमा (500 करोड़ कम)
23-24 4.55 लाख करोड़	23-24 15.00 हजार करोड़
24-25 4.54 लाख करोड़	24-25 14.50 हजार करोड़
<b>खाद (25 हजार करोड़ कम)</b>	<b>विदेश मंत्रालय (7 हजार करोड़ कम)</b>
23-24 1.89 लाख करोड़	23-24 29 हजार करोड़
24-25 1.64 लाख करोड़	24-25 22 हजार करोड़
<b>फूड सल्लिडी (7000 करोड़ कम)</b>	<b>मुफ्त राशन स्कीम (एक हजार करोड़ कम)</b>
23-24 2.12 लाख करोड़	23-24 2.12 लाख करोड़
24-25 2.05 लाख करोड़	24-25 1.02 लाख करोड़
<b>कृषि (8000 करोड़ बढ़ा)</b>	<b>पूर्वोत्तर भारत (कोई बदलाव नहीं)</b>
23-24 1.43 लाख करोड़	23-24 5900 करोड़
24-25 1.51 लाख करोड़	24-25 5900 करोड़

## युवाओं-मध्यम वर्ग को मिलेगी नई ताकत: मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी ने बजट देश को समृद्धि की ओर लेकर जाएगा. इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है. ये शक्ति देने वाला बजट है. ये किसानों-युवाओं को प्रगति की राह पर ले जाना वाला बजट है. ये युवाओं को अनगिनत मौके देने वाला बजट है. इस बजट से मिडिल क्लास को नई ताकत मिलेगी. ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की योजनाओं के साथ आया है. इससे महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. इस बजट से व्यापारियों, लघु उद्योगों को प्रगति का नया रास्ता मिलेगा.

## विशेष आयोजन

न्यू टैक्स रिजिम में राहत

पेज 6-7

## हमारे न्याय पत्र का कॉपी-पेस्ट बजट: राहुल

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, सरकार ने 'कुर्सी बचाओ' बजट पेश किया है. यह कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र और पिछले बजटों की नकल है. अपने मित्रों को खुश किया गया. 'ए' को लाभ दिया गया, लेकिन आम लोगों को कोई राहत नहीं दी गई. ये हमारे न्याय पत्र का 'कॉपी-पेस्ट' है. इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के पास ही विजन है. मोदी की तीसरी सरकार के खोखले वादे पहले की तरह निरर्थक साबित होंगे. बजट पूरी तरह दिशाहीन है. इसमें कई राज्यों के साथ अन्याय हुआ है.



**राशिफल**

आचार्य प्रणव मिश्रा

**मेघ**  
विदेश यात्रा का योग है। आय भी होगी, पर गलत आय से बचें। नौकरी में पदोन्नति होगी। बेरोजगारी दूर होकर प्रसन्नता बनी रहेगी। निवेश शुभ रहेगा। बाहरी सहयोग से कार्य होगा। नए कार्य को शुरूआत हो सकती है। यात्रा लाभदायक रहेगी। गणेश जी का पूजन करें।

**वृषभ**  
समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सरकारी कार्य में गति मिलेगी। पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। किसी संत से शुभ ज्ञान प्राप्त होगा। पुराने भूल-बिसरें साथियों से मुलाकात होगी। आत्मविश्वास बढ़ता है। व्यवसाय ठीक है। चिंता और तनाव रहेगा।

**मिथुन**  
धर्म में मन लगेगा। ससुराल से संबंध सुधार होगा। साथ ही लाभ की स्थिति बनेगी। नौकरी में अधिकार बढ़ सकते हैं। अप्रत्याशित लाभ होगा बेरोजगारी दूर होगी। सक्रिय रहना होगा। परिवार की चिंता रहेगी। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी।

**कनक**  
नया कार्य के पहले बिचार अतिआवश्यक है। इससे बचना होगा। अप्रत्याशित खर्च सामने आयेगी स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। कार्य में बाधा होगी। धन और कौशल को हानि हो सकती है। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। कौमती वस्तुएं संभालकर रखें।

**सिंह**  
कार्यभार पर तनाव हो सकता है। पुरानी लेनदारियों वसूल होगी। काम में मन लगेगा। वरिष्ठजनों का सहयोग प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी। यात्रा, निवेश व नौकरी मनोनुकूल रहेगी। फालतू बातों पर ध्यान न दें। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी।

**कन्या**  
कार्य में सफलता मिलेगी। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। बेरोजगारी दूर होगी। नेत्र तथा सिर दर्द हो सकता है। व्यावसायिक कठिनाई दूर होगी। चिंता कम रहेगी। प्रसन्नता बनी रहेगी। कार्य में लगन बढ़ेगी। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें।

**तुला**  
अपरिचित से लेन-देन में सावधानी रखें। विवाद को तूल न दें। आवश्यक वस्तु गम हो सकती है। अपनों से सहयोग नहीं मिलेगा। चिंता रहेगी। विस्तार कार्यों में देरी हो सकती है। हिम्मत रखो। नकारात्मकता बढ़ेगी। फल का दान करें।

**वृश्चिक**  
समय अच्छा है। खुशी व सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। कोर्ट कचहरी में सफलता हासिल होगी। परिवार में आनंदोत्सव हो सकता है। कुछ दिक्कतों के साथ लाभ में वृद्धि होगी। प्रसन्नता में वृद्धि होगी। निवेश शुभ रहेगा।

**धनु**  
उन्नति के प्रयास कोमल रहेगे। रोजगार में वृद्धि होगी। धन प्राप्ति सुगम होगी। भूमि और भवन संबंधी बाधा दूर होगी। यात्रा, निवेश और नौकरी मनोनुकूल लाभ होगा। विरोधी अनुकूल रहेगे हैं। उनका विरोध बोलना रहेगा। पीला वस्तु दान करें।

**मकर**  
वैवाहिक प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। मित्र व संबंधियों से लाभ होगा। कोर्ट कचहरी के काम निबट करेगे। निवेश शुभ रहेगा। यात्रा से लाभ होगा। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। प्रसन्नता में वृद्धि होगी। जोखिम व जमानत के कार्य टालें।

**कुंभ**  
रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेगे। आय में वृद्धि होगी। निवेश सोच विचार कर ही करें। धन फंसने का योग है। यात्रा अनुकूल रहेगी। बेचैनी रहेगी। अपनों से संबंध बिगड़ सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखें। किये गए कार्य का लाभ होगा।

**मीन**  
धन मिलने से मन प्रसन्न होगा। विदेश में बसे लोगों के लिए लाभ का समय है। निद्रा में नौकी आणी। पार्टी व पिकनिक का आनंद मिलेगा। नौकरी में काम का दबाव अधिक हो सकता है। आय में वृद्धि होगी। परहित के काम करने का मौका मिल सकता है।

**सुदेश महतो दिल्ली रवाना, हो सकती है सीट शेयरिंग पर चर्चा**

रांची। आजसू सप्रिमो सुदेश कुमार महतो मंगलवार को दिल्ली रवाना हुए। उनके दिल्ली जाने को लेकर राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर शुरू हो गया है। कयास लगाया जा रहा है कि भाजपा आलाकाम के साथ विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही चुनावी रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। इससे पहले रांची में सुदेश महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। ज्ञात हो कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए आजसू पार्टी भी कई कार्यक्रम चला रही है।

**राज्य की जनता खौफ में जी रही अपराधी मौज में : बाबूलाल मरांडी**

रांची। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, कांग्रेस और झामुमो सरकार में अपराधियों का बोलबाला इस कदर बढ़ गया है कि शिक्षक समेत राज्य के अन्य कर्मचारी नौकरी छोड़ कर दूसरे प्रदेश में जाने को विवश हैं। भय का वातावरण सिर्फ सड़कों पर ही नहीं है, लोगों के जहन में भी है। जब चोरो, डकैतों और अपराधियों को संरक्षण स्वयं सरकार से मिल रहा है, तो जनता करे तो करे क्या? सरकार में घरो के टूटे हुए ताले ही आन चोरो को मिली हिम्मत की दाद दे रहे हैं। महिलाएं असुरक्षित हैं, बच्चे डरे हुए हैं, झारखंडवासी परेशान हैं और हेमंत सरकार में अपराध और अपराधियों का कोई निदान नहीं है।  
**शुरू से ही स्वयंसेवक रहा, यह मेरा सौभाग्य :** बाबूलाल ने एक्स पर एक दूसरा पोस्ट भी किया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ, संघ की गतिविधियों से जुड़कर व्यक्ति विकास, चरित्र निर्माण, समाजसेवा और राष्ट्रप्रेम की भावना विकसित होती है। दुर्भाग्यवश पूर्व पूर्वांचल की राजनीति से प्रेरित होकर कांग्रेस ने केंद्रीय कर्मचारियों को संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने कांग्रेस के इस तुगलकी फैसले को बदलकर समाज के बड़े बड़े को संघ के संस्कार प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया है। इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री का हृदयतल से आभार।

**रुख पर अड़े सहायक पुलिसकर्मियों ने सरकार के समक्ष रखीं शर्तें**

**कैबिनेट की बैठक में मांगें मानें, तभी आंदोलन वापस होगा**

सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने अपने आंदोलन को आगे भी जारी रखने की घोषणा की है। सहायक पुलिसकर्मियों के अनुसार, सरकार के साथ सोमवार हुई वार्ता में जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है, अगर उन मांगों को 24 जुलाई को होनेवाली कैबिनेट की बैठक में मान लिया जाता है, तभी वे अपना आंदोलन समाप्त करेंगे। जब तक सरकार उनकी मांगों को कैबिनेट में नहीं लाती है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।  
**झारखंड पुलिस ने किया था लाठीचार्ज :** झारखंड पुलिस में समायोजन की मांग को लेकर



रांची के मोरहाबादी मैदान में धरने पर बैठे सहायक पुलिसकर्मियों।

फिलहाल पांच मुख्य बिंदुओं पर बनी है सहमति  
• मानदेय में 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी पर सहमति  
• सेवा अवधि का विस्तार एक साल के लिए किया जाएगा  
• होमगार्ड और वन आरक्षी की बहाली में रिजर्वेशन पर भी सहमति  
• विभागीय सिपाही की तरह की सरकारी छुट्टियां भी मिलेंगी  
• सिपाही की तरह सालाना चार हजार रुपये का भत्ता भी मिलेगा

लाठीचार्ज कर दिया था। सहायक पुलिसकर्मियों को बहाली 10 हजार रुपये के मानदेय पर राज्य के 12 जिलों गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, दुमका व गिरिडीह में हुई थी।

**पुलिस विभाग में उलट-फेर: डीजीपी के आदेश पर डीआईजी कार्मिक ने जारी किया आदेश, गई अफसर किए गए डिमोट आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाकर एएसआई बने 12 अफसर फिर से बने सिपाही**

सौरभ सिंह। रांची



आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाकर सब इंस्पेक्टर बने 12 पुलिस पदाधिकारी फिर से सिपाही बनाए गए हैं। हाईकोर्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। डीजीपी के आदेश पर डीआईजी कार्मिक ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है।  
जिन्हें फिर से सिपाही बनाने का आदेश दिया गया है, उनमें धनंजय कुमार सिंह, सुखराम नाम, संजय कुमार शर्मा (वर्तमान बोकारो जिला बल), रामाकांत राय (वर्तमान में पलामू जिला बल) विशु उरांव, उपेंद्र कुमार राय (वर्तमान में सरायकेला जिला बल), मारवाड़ी उरांव, योध्या उरांव (वर्तमान में देवघर जिला बल), सलन पॉल केरकेट्टा (वर्तमान में

धनबाद जिला बल), महेश्वर महतो (वर्तमान रामगढ़ जिलाबल), भूतनाथ सिंह मुंडा (वर्तमान में चाईबासा जिला बल), मो. अबरार (वर्तमान हजारीबाग जिलाबल) और इंस्पेक्टर अमरनाथ-2 (मृत) शामिल हैं।  
बताया जा रहा है कि सिमडेगा जिला बल के तत्कालीन पुलिसकर्मी अरुण कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें बताया गया था

**2008 में दिया गया था इन्हें प्रमोशन**

सिमडेगा के बांसजोर ओपी पर दो जनवरी 2008 की रात उग्रवादियों ने हमला कर दिया था। इस हमले में पुलिसकर्मियों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उग्रवादियों से लोहा लिया था। इसके बाद सिमडेगा के तत्कालीन एसपी ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की अनुशंसा कर दी थी। इसके बाद ही 12 सिपाहियों को प्रमोशन देते हुए एएसआई बना दिया गया था।

कि प्रमोशन के वक्त उन्हें दर्किनार कर दिया गया। प्रोन्नति समेत अन्य मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका (एलपीए न. -

**22 दारोगा, इंस्पेक्टर रैंक में प्रोन्नति के योग्य पाए गए**

रांची। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने 22 सब इंस्पेक्टर (दारोगा) को इंस्पेक्टर रैंक में प्रोन्नति के योग्य पाया है। जल्द ही सभी को इंस्पेक्टर रैंक में प्रोन्नति दी जाएगी। मुख्यालय ने जिन 22 सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर रैंक में प्रोन्नति योग्य पाया है, उसमें सुधीर प्रसाद साहू, हजारीबाग शिव बिहारी तिवारी, शंभु प्रसाद सिंह, त्रिलोचन तामसोय, पृथ्वी सेन दास, विजय कुमार, अभिजीत गौतम, मुकेश चौधरी, गुलशन भंगरा, सोनी प्रताप, अजीत कुमार भारती, प्रशांत कुमार-1, हरदियुस टोप्पो, दयानंद सोरेन, संजय जनक मूर्ति, संजय चंद्र उरांव, राजीव प्रकाश, मो. कुहुस, मानकी सुडी, बैजनाथ कुमार, एस. खालीद ईमाम और

पूनम कुजूर शामिल हैं।  
**चयन पर्षद की बैठक में 49 दारोगा की प्रोन्नति पर किया गया था विचार :** गौरतलब है कि डीजीपी अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में चयन पर्षद की बैठक हुई थी। इस बैठक में राज्य के अलग-अलग जिलों में पदस्थापित 49 दारोगा की प्रोन्नति पर विचार किया गया। 49 में से 22 सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर के प्रोन्नति के योग्य पाया गया। वहीं 22 अन्य सब इंस्पेक्टर को वृहत सजा प्रभावी होने के चलते प्रोन्नति के लिए अयोग्य पाया गया। पांच ऐसे सब इंस्पेक्टर हैं, जिनकी प्रोन्नति लंबित है। उनमें से चार पर विभागीय कार्यवाही से संबंधित एक मामला लंबित है।

निर्देश दिया। पुलिस मुख्यालय ने कार्रवाई करते हुए इन लोगों को सिपाही के पद पर डिमोट करने का आदेश जारी कर दिया।

**कोल्हान प्रमंडल पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन युवा, महिला, किसान, छात्र, गरीब, दलित सबके लिए योजना चला रही सरकार: सीएम**

विशेष संवाददाता। रांची

**झामुमो कार्यकर्ता विस चुनाव के लिए तैयार रहें : हेमंत**

झारखंड मुक्ति मोर्चा भी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है। रांची के हरमू स्थित सोहराई भवन में मंगलवार को कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम एवं सरायकेला-खरसावां जिला के पंचायत स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसे पार्टी के कार्यकर्ता अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऑनलाइन संबोधित किया। उन्होंने झामुमो कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। हेमंत ने कहा कि सरकार का योजना समाज के हर वर्ग के लोगों तक पहुंचे, ये पंचायत स्तर के कार्यकर्ता सुनिश्चित करें। सरकार आज युवा, महिला, किसान, छात्र, गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा सबके लिए योजना चला रही है।



कोल्हान प्रमंडल स्तरीय बैठक में झामुमो महासचिव विनोद पांडेय व गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने कार्यकर्ताओं को टिप्स दिये।

**बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी**

बुधवार को झामुमो के खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा जिला के पंचायत स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक हरमू स्थित सोहराई भवन में आहूत की गयी है। बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी और कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट से लेकर चुनाव जीतने के टिप्स दिए जाएंगे। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए क्या-क्या करना है, नेताओं- कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा।

**लोगों की आस हेमंत से, वह टूटे ना : कल्पना**

गांडेय की विधायक कल्पना सोरेन ने बैठक में आये सभी कार्यकर्ताओं को योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोगों का विश्वास हेमंत सोरेन पर है। लोगों की आस टूटनी नहीं चाहिए। कार्यकर्ता मजबूती से अपने क्षेत्र में जनकल्याण के काम करें। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार व सांगठनिक रूप से युद्ध स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन करने का निर्देश दिया। योजनाओं का लाभ हर हाल में राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का निर्देश दिया। आप सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है सरकार की जो भी योजना है उसे गांव-गांव तक पहुंचाएं।

**बूथ स्तर पर कार्यक्रम करें : विनोद पांडेय**

पार्टी के महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने बैठक में आये कार्यकर्ताओं को राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। उनके कार्यकर्ताओं के सवालों के भी जवाब दिए और संगठन की मजबूती के लिए बूथ स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन करने की बात कही। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि हरेक कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर बैठक करें और सरकार की सारी योजनाओं के बारे में बताएं। बैठक में कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम एवं सरायकेला-खरसावां जिला समिति के सभी पदाधिकारी, वर्ग संगठनों के अध्यक्ष सचिव, नगर/महानगर समिति के पदाधिकारी, प्रखंड समिति के पदाधिकारी और पंचायत समिति के अध्यक्ष व सचिव शामिल हुए।

**25 जुलाई को मतदाता सूची के प्रारूप का होगा प्रकाशन**

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) के. रवि कुमार ने राज्य में चल रहे मतदाता सूची के द्वितीय विशिष्ट संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 25 जुलाई को होने वाले मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन को लेकर निर्वाचन सदन में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि राज्य में चल रहे मतदाता सूची के 25 जुलाई को प्रारूप प्रकाशन के अवसर पर सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ के द्वारा नए मतदाता सूची के प्रारूप को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ-साथ निर्वाचन आयोग के ऑनलाइन माध्यमों पर भी नए मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी।  
कहा कि मतदाता 25 जुलाई को 1950 पर एएसएमएस के माध्यम से भी मतदाता सूची में अपना नाम जांच सकते हैं। इसके लिए अपने नंबर से 1950 पर ईसीआई लिखकर स्पेस देकर अपने एपिक नंबर लिखकर मैसेज करने से आपके मतदाता पहचान पत्र से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावे वॉटर हेल्पलाइन ऐप पर भी अपने एपिक नंबर डालकर सूची में नाम जांच सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस ओर आम मतदाताओं के बीच

**वलासिफाइड**

22 वर्ष से लगातार उज्ज्वल प्रदर्शन • झारखंड का प्रतिष्ठित संस्थान

**14th JPSCT PT & Mains**  
Foundation Batch in our Hazaribag Branch

Office Class (Hazaribag Branch)  
Under Guidance of Pawan Jha  
Mentor : Mr. Harsh Vardhan  
(Administrator, Jharkhand State Municipal Council)

Fee  
PT.-Rs. 1000/-  
Mains -Rs. 21000/-  
Time - 8 am

Mob - 9608711477 www.vijayastudycircle.com

Head Office : Shanti Bhawan, Albert Ekka Chowk, Ranchi  
Branch Office : Bhawani Plaza, S.P. Rana Enclave  
1st Floor, West of Banshi Lal Chowk  
Malviya Marg, Hazaribag-825301

**BAHARAGORA, NEAR : R.V.I.School**

**OXYRIVER Aqua**  
With Minerals

Swapan Kumar Paul Mob. : 70918 66623

Regd. No. 2026/RAN/4761/NK/378

**TULSI PUBLIC SCHOOL**  
A Unit of Public Charitable Trust "LOKCHETNA"

**CLASS Nursery to V**  
CBSE PATTERN

ADMISSIONS OPEN

CREATE THE BEST FUTURE YOUR CHILD

VII - Boladib, Taldi Nagar, Post - Boladib, West Singhbhum, Thana- Tokla, Block Chakradharpur, Jharkhand - 831192, Mob. - 9603711115

PLEASE SEND RESUME FOR AN INDUSTRIAL AUTOMATION ORGANISATION, MOSTLY ENGAGED WITH PRESTIGIOUS PROJECTS IN

**TATA STEEL, UCIL, ISRO, BARC ETC**

1. **MARKETING MANAGER : SALARY 2.4 LAKHS PA, ITI, DEE, BEE FOR JAMSHEDPUR, SALES PLC SCADA HMI KNOWLEDGE, experience 2 years**

2. **OFFICE ASSISTANT : SALARY 2.4 LAKHS PA, Graduate with 5 Years Work Experience Computer Proficient, Knowledge About Tender and TATA STEEL PROCUREMENT**

MAIL CV : pradeep\_wk@yahoo.com

**फाहिमा अकादमी एप्लीकेटेड स्कूल**  
नौबीएसई न्यू दिल्ली हजारीबाग

**फैसिलिटी**  
स्वतंत्र स्वतंत्रता में शिक्षा, योग्य शिक्षक, स्कूल बस की सुविधा, स्टाफ वित्तपोषण, निवेदक

**मोहम्मद अली**  
स्कूल हायवेक्टर

पता : कल्लू चौक नियट पेट्रोल पंप हजारीबाग

**Children Clinic**  
The Complete Shishu Care

Sr. Consultant  
**Dr. Aman Urwar**  
M.B.B.S, D.C.H., P.G.P.N.  
CHILDREN HOSPITAL (A Unit of ANHRC)

Child & Newborn Specialist

**जेडी स्कूल बड़कागांव रोड हजारीबाग**

योग शिक्षक...  
आधुनिक सुविधा...  
बेहतरीन शिक्षा की गारंटी...

निवेदक **विनोद भगत**

संपर्क करें 9835755523

**GYAN JYOTI COLLEGE OF PHARMACY, PARAMEDICAL & NURSING**

Paramedical: B.Sc DMLT, DMLT, OF Assistant, X-Ray Technicians, Dresser

PHARMACY: DIPLOMA IN PHARMACY, DIPLOMA IN PHARMACY, DIPLOMA IN PHARMACY

NURSING: ANI, GNM, BSC NURSING

Address: Near PWD Chowk, Hazaribag, Jharkhand, India  
9431505777, 7870145555, 8789274448



## ट्रिफ खबर

### 55 तीर्थ यात्रियों का दल द्वारिका-सोमनाथ रवाना

जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम के 55 हिन्दू धर्मावलंबियों (अटेंडर सहित) का जत्था मंगलवार को द्वारिका-सोमनाथ तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुआ। उप विकास आयुक्त मनीष कुमार एवं जिला खेल पदाधिकारी अविनेश त्रिपाठी ने इरी झंडी दिखाकर रांची स्थित हटिया रेलवे स्टेशन के लिए बस को रवाना किया। वहां ट्रेन से द्वारिका-सोमनाथ प्रस्थान करेंगे। तीर्थ यात्रा 30 जुलाई को समाप्त होगी।

### समिति ने अधिकारियों से मांगा प्रतिवेदन

जमशेदपुर। झारखंड विधानसभा की आवास समिति के सभापति रमेश जोसेफ गॉर्लिनटिन ने मंगलवार को स्थानीय परिसर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान जिले में पूर्व में बने सरकारी भवनों में मानकों के अनुरूप सुविधाओं की उपलब्धता से जुड़ा प्रतिवेदन अधिकारियों से मांगा। सभापति ने बताया कि अलग-अलग जिलों में जाकर सरकारी भवनों में उपलब्ध सुविधाओं की जांच की जा रही है।

### अधिवक्ता के निधन पर बार एसो. ने शोक जताया

जमशेदपुर। आदित्यपुर निवासी अधिवक्ता मिथिलेश पांडे का निधन हो गया। उनका इलाज टीएमएच में चल रहा था। निधन की जानकारी मिलने के बाद बार एसोसिएशन के सदस्यों ने गहरी संवेदना प्रकट की। उनका पार्थिव शरीर अस्पताल के शीत गृह में रखा गया है। 24 जुलाई को दाह संस्कार पावती घाट में किया जाएगा। बार एसोसिएशन के अधिवक्ता अक्षय कुमार झा ने बताया कि मिथिलेश पांडेय जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में प्रैक्टिस करते थे।

# दोबारा नहीं होगी नीट यूजी की परीक्षा

## सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा- ऐसे सबूत नहीं मिले, जिससे निष्कर्ष निकले कि परीक्षा की पवित्रता पूरी तरह से प्रभावित हुई

- जांच अधूरी, व्यापक गड़बड़ी की संभावना नहीं
- आज से शुरू हो सकती है काउंसिलिंग

एजेंसियां। नयी दिल्ली

नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि नीट का पेपर दोबारा नहीं होगा। फैसला पढ़ने के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र सरकार, एनटीए ने अपनी बातें रखीं, सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर ने भी कोर्ट की सहायता की। सीजेआई ने कहा कि यह मामला बड़ी संख्या में छात्रों को प्रभावित करने वाला है। इसलिए, हम दोबारा परीक्षा

को न्यायचित नहीं मानते। सीजेआई ने कहा कि हमारा निष्कर्ष है कि पेपर लीक हजारीबाग में हुआ और पटना तक गया, यह निर्विवाद है। उन्होंने आदेश पढ़ते हुए कहा कि सीबीआई ने कहा है कि अभी तक हजारीबाग और पटना के 155 छात्रों के लाभान्वित होने की बात सामने आई है।

सीजेआई ने कहा कि अभी तक जांच अधूरी है, हमने केंद्र से भी जवाब मांगा था कि 4750 केंद्रों में से कहां-कहां गड़बड़ी रही, हालांकि, आईआईटी मद्रास ने भी मामले की समीक्षा की। अभी तक उपलब्ध सामग्री के हिसाब से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि परीक्षा की पवित्रता पूरी तरह प्रभावित हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने इस साल के नतीजों की तुलना पिछले तीन

## पेपर लीक मामले में सुप्रीम फैसला



साल के आंकड़ों से भी की। इससे भी ऐसा नहीं लगा कि व्यापक गड़बड़ी है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि गलत तरीके अपनाने वाला कोई भी छात्र फायदा न उठा सके, न भविष्य में दाखिला पा सके। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि दोबारा परीक्षा का 20 लाख से ज्यादा छात्रों पर इसका असर

- पेपर लीक हजारीबाग में हुआ और पटना तक गया, 155 लाभान्वित
- दोबारा परीक्षा लेने पर 20 लाख से ज्यादा छात्रों पर असर पड़ेगा

पड़ेगा। अकादमिक सत्र गड़बड़ा जाएगा, पढ़ाई में देरी होगी, इसलिए हम दोबारा परीक्षा को न्यायचित नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि

## चार लाख से ज्यादा छात्रों का रिजल्ट दोबारा जारी होगा

शीर्ष अदालत एनटीए को आदेश दिया है कि वो प्रश्न पत्र के विवादित प्रश्न का एक ही उत्तर (विकल्प 4) मानते हुए रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करे। आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञों द्वारा सौंपी गयी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि फिजिक्स के विवादित प्रश्न का सही उत्तर ही सही माना जाएगा। अब एनटीए को जल्द ही रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करना होगा। बता दें कि नीट के 4,20,774 अभ्यर्थियों ने विवादित प्रश्न का विकल्प 2 चुना था, जबकि 9,28,379 ने विकल्प 4 चुना था। एनटीए ने दोनों उत्तरों को सही मानते हुए विकल्प 2 और 4 चुननेवालों को मार्क्स दिए थे। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन अभ्यर्थियों के 5 अंक कटेंगे, जिन्होंने विकल्प 2 चुना था। चार अंक प्रश्न के और एक अंक नेगेटिव मार्किंग के। इससे ऑल इंडिया रैंकिंग में बड़ा बदलाव होगा। नीट के टॉपर्स की संख्या भी घटेगी। रीटेस्ट के बाद नीट यूजी परीक्षा के 61 टॉपर्स हैं, इनमें 44 ऐसे हैं, जिन्होंने पुरानी एनसीआईआरटी बुक के हिसाब से विकल्प 2 चुना था। अब इनके 5 मार्क्स कटेंगे और इनका स्कोर 720 से घटकर 715 पर आ जाएगा।

एनटीए चाहे, तो बुधवार से अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग की प्रक्रिया शुरू कर

## माइंस खुलवाने के लिये एसडीओ को भेजा पत्र

जादूगोड़ा। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड अंतर्गत यूसिल की बागुजाता यूरिनियम माइंस बाँटे 15 जुलाई से बंद पड़ी हुई है।

इस बीच यहां कार्यरत साढ़े तीन सौ ठेका मजदूरों ने माइंस खोलने की मांग को लेकर आज मंगलवार को माइंस के बगल में प्रदर्शन किया व विरोध जताया। ठेका मजदूर नेता चंद्राई हांसदा की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने घाटशिला अनुमंडल पदाधिकारी की पत्र लिखकर इस दिशा में पहल करने की मांग की है।

यहां यूसिल के ठेका कर्मी बरियार माडी ने अपनी रैयती जमीन से कंपनी वाहन के आने-जाने पर रोक लगा रखी है एवं रास्ते में गड्डा खोदकर बैरिकेडिंग कर दिया है। वह स्थायी नौकरी की मांग पर अड़ा हुआ है।

## विधायक निधि की कई योजनाओं पर नहीं हुआ काम, डीडीसी ने जतायी नाराजगी

- मुसाबनी व पोतका बीडीओ से योजना की राशि वापस मांगी गई
- जेएनएसी व मानगो ननि से 15 योजनाओं का डीडीसी विपत्र मांगा

वरीय संवाददाता। जमशेदपुर

उप विकास आयुक्त मनीष कुमार ने मंगलवार को विधानसभावार विधायक निधि की लम्बित योजनाओं की समीक्षा की, जिसमें पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 से लेकर 2023-24 तक की दर्जनों योजनाएं अभी भी लंबित हैं। अधिकांश का डीडीसी विपत्र जमा नहीं किया गया है। डीडीसी ने कुछ योजनाओं को पूरा करते हुए जल्द डीडीसी विपत्र जमा करने के लिए कहा। समीक्षा के दौरान डीडीसी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिन योजनाओं की अंशुंसा प्राप्त है उनका प्राक्कलन 31 जुलाई

## वज्रपात से 11 बकरी की मौत, दो घायल चक्रधरपुर। प्रखंड की इटीहासा

पंचायत के गाजीडीह गांव में वज्रपात की चपेट में आने से 11 भवशियों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य पशु घायल हो गए, बताया जाता है कि गाजीडीह गांव निवासी युवक लॉडू हेन्रम गांव के कुछ ग्रामीणों के बकरा, बकरी व बैल चरा रहा था। इसी दौरान शाम में बारिश शुरू हो गई। इस बीच लॉडू हेन्रम एक पेड़ के नीचे चला गया, जबकि बकरा, बकरी व बैल दूसरे पेड़ के नीचे चले गए। इस बीच वज्रपात की चपेट में आने से पेड़ के नीचे मौजूद 11 बकरियों की मौत हो गई, वहीं दो बैल घायल हो गए। इस घटना में गांव के किसान दुर्गा हेन्रम की तीन, विश्वनाथ हेन्रम की पांच, कायरा हेन्रम की एक एवं साधुचरण हेन्रम की दो बकरी की मौत हो गई। गंगाधर गोप के दो बैल घायल हो गए।

## ढलाई के एक दिन बाद ही ढही आदिवासी कला केंद्र की छत

संवाददाता। चांडिल

सरायकेला-खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड के लेपाटांड गांव के जाहरेथान के निकट निर्माणाधीन आदिवासी कला केंद्र भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। भवन के छत का ढलाई 20 जुलाई को की गई थी और दूसरे ही दिन 21 जुलाई को छत की ढलाई ढह गई। कला केंद्र भवन की छत गिरने के बाद इसके निर्माण में बरती हुई गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीण अब भवन निर्माण की उच्चस्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि भवन का निर्माण काफी छटिया कर का किया जा रहा था, राजनीतिक छत्रछाया रहने के कारण ठेकेदार पर विभाग का किसी प्रकार का दबाव नहीं पड़ता था, बताया गया कि भवन निर्माण में नींव नहीं दी गई



है। छत ढलाई में भी सरिया कम लगाया गया था, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए कल्याण विभाग द्वारा एसीए फंड से 24 लाख 50 हजार रुपये की लागत से ईचागढ़ प्रखंड के लेपाटांड में आदिवासी कला केंद्र भवन का निर्माण कराया जा रहा है, ग्रामीणों ने बताया कि भवन निर्माण के लिए गांव में कुछ लोगों ने ग्रामसभा कर लाभुक समिति का गठन किया था, लेकिन भवन निर्माण का काम किसी दूसरे व्यक्ति से कराया जा रहा है, निर्माण स्थल पर किसी प्रकार का बोर्ड भी नहीं लगाया गया है।

# बजट पर प्रतिक्रिया सत्ता पक्ष ने सराहनीय, विपक्ष ने बताया लोकलुभावन

वरीय संवाददाता। जमशेदपुर

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने वित्त वर्ष 2024-25 का आम बजट मंगलवार को संसद में पेश किया। बजट पेश करने के दौरान उन्होंने जहां कई लोक लुभावन घोषणाएं कीं, वहीं देश की जीडीपी बढ़ोतरी के लिए कई कदम उठाने की बात कही। आम बजट को सत्ता पक्ष ने जहां सराहना की, वहीं विपक्षी दलों ने इसे लोकलुभावन व निराशाजनक बताया। जबकि शहर के व्यापारी वर्ग एवं उद्यमियों ने बजट को मिला जुला करार दिया।

### भाजपा सरकार ने जनता पर थोपा चुनावी खर्च : बन्ना गुप्ता

सूत्रों के स्वास्थ्य सह खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि एनडीए सरकार का आम बजट में जनता के हित की अवहेलना की गई है। एक तरह से हाल में संपन्न चुनावी खर्च को जनता पर थोपा दिया गया है, युवाओं को नौकरी के बदले इंटरनेशनल का झुनझुना वह भी ईएमआई में, किसानों और महिलाओं को फिर से उपेक्षा की गई है, कामगार और मजदूरों को फिर उगा गया है, बजट को कांग्रेस के न्याय पत्र से चुराया गया है, जिसमें पहली नौकरी पक्की का वायदा था, झारखंड में केंद्रीय मंत्री चुनावी प्रभारी बने हैं लेकिन झारखंड को जनता को कुछ नहीं दिला सके, आश्चर्य है कि बजट में स्वास्थ्य सेवा का बजट घटाय गया है जिसका मतलब साफ है कि जनता की जान से भाजपा सरकार को कोई लेना देना नहीं।

### युवाओं और किसानों को थमाया लॉलीपॉप : डॉ. अजय कुमार

पूर्व सांसद सह कांग्रेस के वरीय नेता डॉ.अजय कुमार ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के करोड़ों युवाओं और किसानों को बरगलाने का काम किया है, या यूँ कहें तो मोदी सरकार ने युवाओं और किसानों को इस बजट के माध्यम से लॉलीपॉप थमा दिया है, कांग्रेस के संकल्प पत्र की नकल करते हुए नौकरी देने का वादा किया है, लेकिन क्या प्रावधान होंगे स्पष्ट नहीं है, बजट कागजों पर तो अच्छा लग सकता है, लेकिन जमीनी स्तर पर इससे किसानों को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा।

### टीडीएस कानून का सरलीकरण स्वागत योग्य: सुरेश सोथालिया

कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय सचिव सुरेश सोथालिया ने किसानों को लाभ, युवाओं के प्रशिक्षण और रोजगार और

एमएसएमई को समर्थन देने के लिए वित्त मंत्री का आभार जताया, उन्होंने कहा कि इस बजट दो लाख करोड़ की लागत से चार करोड़ लोगों के लिए रोजगार योजनाएं, उच्च उपज वाली फसल की किस्म जारी करने से किसानों को लाभ होगा, शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये से परीब छात्रों को मदद मिलेगी, कृषि और संबद्ध उत्पादों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये से किसानों को मदद मिलेगी, बुनियादी ढांचे में बड़े व्यय से औद्योगिकीकरण को समर्थन मिलेगा, टीडीएस कानून का सरलीकरण स्वागत योग्य है, कुल मिलाकर यह एक अच्छा बजट है।

### महिलाओं व युवाओं के लिए ड्रीम बजट : दिनेश कुमार

पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार ने कहा कि यह सभी वर्गों खासकर युवाओं और महिलाओं के लिए एक ड्रीम बजट है, इसमें विहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर के लिए घोषणाएं पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी, कौशल और रोजगार सृजन की घोषणाएं ऐतिहासिक हैं, महिलाओं के लिए सहायता योजनाओं की तारीफ की जानी चाहिए, पीएम मोदी का 2047 तक विकसित भारत का सपना बजट में साफ झलकता है, इनका टेक्स स्लैब में बदलाव मध्यम वर्गीय करदाताओं को बड़ी राहत देगी।

### पूर्वोदय स्कीम से विकसित होगा पूर्वोत्तर: कुलवंत सिंह

भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य कुलवंत सिंह बंदी ने आम बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत बनाने की दूरदर्शी सोच को धरातल पर उतारने वाला बताया, उन्होंने कहा कि देश के पूर्वी राज्यों के विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम की घोषणा सराहनीय है, केंद्र ने पूर्वी के अन्य राज्यों के साथ साथ झारखंड के विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम की घोषणा की है जो सराहनीय है, इसके साथ ही आदिवासी समाज को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया यह किसानों, युवाओं, मजदूरों और महिलाओं को देखते हुए बनाया गया बजट है जिससे सभी वर्गों को लाभ मिलेगा।

### निराशाजनक बजट : मंगल कालिंदी

आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि महंगाई से जनता परत है, लेकिन बजट में आमजन के लिए कुछ भी खास नहीं किया गया, इस बजट में झारखंड एवं यहां के निवासियों के लिये कुछ

भी खास नहीं है, जमीनी स्तर पर इससे किसानों को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा, सरकार को बजट में बनाना चाहिए था कि पिछले 10 वर्षों में आपने कितनी नौकरियां दीं, इस बजट में जनता को राहत देने वाला कुछ नहीं है, केवल आंकड़ों की बाजीगरी है।

### चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय बजट: डॉ. सौरभ चौधरी

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव डॉ. सौरभ चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण के द्वारा पेश किए गए बजट को चिकित्सा क्षेत्र के लिए सराहनीय बताया, उन्होंने कहा कि तीन प्रमुख कैसर ड्रग्स पर से करस्टम ड्यूटी हटाया गया है, कैसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये एक महत्वपूर्ण कदम है, एक्सरे मशीन के अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है, जैसे फ्लोवो पैनल डिटेक्टर और ट्यूब उसके भी बेसिक करस्टम ड्यूटी को कम किया गया है, हेल्थ बजट में लगभग 3000 करोड़ रिसर्च के लिए भी दिया गया है जिसकी बहुत आवश्यकता है, ये सारे सकारात्मक कदम हैं, जिससे आम लोगों को फायदा होने की उम्मीद है।

### सरकार बजट में महंगाई बढ़ाओ बजट : बबलू झा

पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमिटी के उपाध्यक्ष बबलू झा ने कहा कि इस बार का बजट सरकार बचाओ-महंगाई बढ़ाओर बजट है, इस बजट में दलित-आदिवासियों के लिए कोई क्रांतिकारी योजना नहीं लाई गई है, किसान की एमएसपी दुगुना नहीं, कर्मचारी को ओपीएस नहीं, नौजवान अगिनवीर योजना में फंसा रहेगा, महिलाएं महंगाई की मार झेलती रहेंगे, देश के हर वर्ग को निराश करने वाला बजट लेकर आई है मोदी सरकार, यह बजट निराशा का बजट है।

### रोजगार परक बजट : अभिषेक अग्रवाल

सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष (पीआरडब्ल्यू) अभिषेक अग्रवाल गोल्डी ने कहा कि भारत की आर्थिक प्रगति सही रास्ते पर है, गरीब, महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए बजट संतुलित है, खेती की उत्पादकता बढ़ाने, फसलों के उत्पादन, भंडारण और विपणन की व्यवस्था करने, युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा बजट में देखने को मिली है, बजट में रोजगार के अनेकों अवसर देखने को मिले हैं, एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम का एलान किया गया है, पीपीपी मोड में औद्योगिक श्रमिकों के

लिए किराये के आवास की सुविधा प्रदान की भी घोषणा हुई है, बजट में नवाचार, अनुसंधान और विकास को मजबूती मिलेगी, केंद्रीय बजट 2024-25 में मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ा कर 20 लाख किया जाना ऐतिहासिक निर्णय है।

### आम बजट राष्ट्र हित में : सहिस पूर्व मंत्री सह आजसू पार्टी के केंद्रीय प्रधान महासचिव रामचंद्र सहिस

पूर्व मंत्री सह आजसू पार्टी के केंद्रीय प्रधान महासचिव रामचंद्र सहिस ने मोदी सरकार की तीसरी पारी का आम बजट देश हित में है, इस बजट से किसान, शिक्षा, व्यापार के आलावे मध्यम वर्गीय लोगों के स्वरोजगार के क्षेत्र में कारगर साबित होगा, गरीबों को सबसे जायदा राहत मिलेगी, कौशल विकास योजना के तहत 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान करने से सीधे सीधे युवा-छात्र लाभान्वित होंगे, जिससे देश में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे, मध्यम वर्गीय लोगों को मिलेगी राहत : कन्हैया सिंह

### आजसू पार्टी के जिलाध्यक्ष कन्हैया सिंह ने कहा कि इस बजट से मध्यम वर्गीय लोगों को राहत मिलेगी, साथ ही देश के चाहुमुखी किसानों के लिए जो स्वर्णिम योजना है उसे धरातल पर उतारने में राज्य सरकार का भी सहयोग जरूरी है, संगठित क्षेत्रों में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को एक महीने का वेतन दिए जाने की घोषणा से पहली बार नौकरी पाने वाले को तोहफा मिलेगा, देश में महंगाई खत्म करने का भी प्रयास किया गया है जिसका दुर्गामी परिणाम सुखद और स्तौषजनक होगा, रोजगार के बढ़ेंगे अवसर : अप्पु तिवारी

आजसू जिला प्रवक्ता अप्पु तिवारी ने आम बजट पर खुशी जताते हुए कहा कि एक तरफ राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है वहीं केंद्र सरकार ने दवायें सस्ती करने और कैसर जैसे इलाज में छुट्ट देने की बात कही है, जो सराहनीय है, इससे गरीबों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी, 5 वर्षों में 500 टॉप कम्पनियों इंयूशियप के अवसर प्रदान करेगी और युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में बहुत लाभ मिलेगा, इससे झारखण्ड प्रदेश को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा।

### बजट में समग्र विकास का संकल्प : सुधांशु ओझा

भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की

एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में किए गए प्रावधानों का स्वागत किया, उन्होंने वित्तीय बजट को सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और विकासोन्मुखी बताते हुए कहा कि बजट में गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान, बुजुर्ग समेत समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास का संकल्प निहित है, कैसर की दवाएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, कपड़े, मोबाइल एवं अन्य उपकरणों में बीसीडी घटाई गई है, इसके अतिरिक्त सोना- चांदी पर करस्टम ड्यूटी कम की गई है, इसके साथ ही, झारखंड के लिए पुरानी रेल परियोजनाओं के विस्तार हेतु 1260 करोड़ से अधिक की राशि प्रस्तावित की गई है।

### युवाओं को प्रशिक्षण व भत्ता सराहनीय कदम : प्रेम झा

भाजपा जमशेदपुर महानगर प्रवक्ता प्रेम झा ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट गांव, गरीब, किसान, युवा महिलाओं के विकास का नया अध्याय लिखेगा, प्रेम झा ने कहा कि देश के टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने एवं 5000 रुपये का मासिक भत्ता की घोषणा सराहनीय कदम है, यह योजना युवाओं को रोजगार के लिए खुदको तैयार करने में सहायक होगी, बजट एमएसएमई उद्योगों को पुनर्जीवित करने वाली : इंद्र अग्रवाल

### पुनर्जीवित करने वाली : इंद्र अग्रवाल

संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण द्वारा पेश किया गया केंद्रीय बजट हर मायने में देश के उत्थान के मद्देनजर सर्वोत्तम है, बजट एमएसएमई उद्योगों को पुनर्जीवित करने और रोजगार के अवसर प्रदान करने वाली जरूरी चीजें शामिल हैं, उक्त बातें आदित्यपुर स्माल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष इंद्र अग्रवाल ने कही, उन्होंने कहा कि आम लोगों के लिए भी बजट में बहुत कुछ है, टेक्स के स्लैब में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, गरीबों को हर माह मिलने वाला फ्री अनाज भी अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, यह अच्छी बात है।

### सभी वर्गों का रखा गया है ध्यान : जटा शंकर पांडेय

संसद में पेश वार्षिक बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, यह बात भाजपा झारखंड के बजट आधारीत है, पूर्वोत्तर के बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम प्रदेश के विकास को सुनिश्चित कर भारत में नया स्वरोजगार की दिशा में मोदी सरकार कार्य कर रही है, प्रधानमंत्री ने मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख की है, इससे गरीब गरीबों को बिना किसी गारंटी के सरलता से ऋण प्राप्त होगा, यह बजट आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त करने वाला है।

कहीं, उन्होंने बिहार तथा आंध्र प्रदेश पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री की मुक्त कंठ से सराहना की, उन्होंने कहा कि यह बजट गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिला, एवं छात्रों सबके लिए उपयोगी है, आयकर दाता के लिए भी स्टैटड डिडक्शन 50000 रुपये से बढ़ाकर 75000 रुपये कर दिया गया है, महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़, युवाओं के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये, छात्रों के लिए भी सस्ते दर पर ऋण की व्यवस्था की गयी है।

### बजट में वेतन भोगियों के लिए कुछ खास नहीं : गांगुली

केंद्रीय बजट 2024-25 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड कर्मचारी महासंघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शशांक कुमार गांगुली ने कहा कि बजट में सरकारी कर्मचारियों एवं वेतन भोगियों के लिए कुछ खास नहीं है, हालांकि नए टेक्स स्लैब में कुछ राहत दी गई है पर यह धरेलू बचत और निवेश को हतोत्साहित करता है जो उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ाता है, सरकार को चाहिए था कि पुराने टेक्स स्लैब में भी कुछ रियायत दे, स्लैब में बदलाव हो, महंगाई अपने चरम पर है ऐसे में निवेश पर, होम लोन के ब्याज पर, मेडिकलेम साथ ही मानक कटौती पर छूट की सीमा बढ़ने की उम्मीद थी, जिससे सरकार को भी लाभ होता पर कर्मचारियों को निराशा ही हाथ लगी है।

### विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाने वाला बजट : काले

भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रती सिंह काले ने कहा है कि केंद्रीय बजट सर्व समावेशी, युवा केंद्रित और विकासोन्मुख बजट है, यह विकसित भारत के संकल्पों को साकार करने वाला है, 140 करोड़ देशवासियों की आशा एवं आकांक्षाओं के अनुरूप समाज के सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास को बजट गतिशीलता प्रदान करेगा, यह बजट युवाओं के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है, स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ 5 वर्षों में चार करोड़ रोजगार की व्यवस्था देश के विकास में युवाओं की भूमिका को सुनिश्चित करेगा, गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला ये चार स्तंभों पर बजट आधारित है, पूर्वोत्तर के बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम प्रदेश के विकास को सुनिश्चित कर भारत में नया स्वरोजगार की दिशा में मोदी सरकार कार्य कर रही है, प्रधानमंत्री ने मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख की है, इससे गरीब गरीबों को बिना किसी गारंटी के सरलता से ऋण प्राप्त होगा, यह बजट आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त करने वाला है।

## बजट प्रतिक्रिया

देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती : सरयू जमशेदपुर। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने बजट को



केन्द्र सरकार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला तथा देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा टिकाऊ बनाने वाला बताया। कहा कि बजट से भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। आयकर स्लैब में सहूलियत देने का केन्द्र सरकार का प्रयास सराहनीय है। इससे मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचेगा। दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने तथा जीएसटी में सुधार करने की आम जनता की उम्मीदें पूरी नहीं हो पायी हैं। केपिटल गेन पर टैक्स में वृद्धि से भी मध्यम वर्ग को नुकसान होगा। उम्मीद है कि बजट पर लोकसभा में बहस के दौरान भारत सरकार इसका ध्यान रखेगी कि मध्यम एवं निम्न मध्यम वर्ग को बचत हो और अर्थव्यवस्था में सुधार का लाभ केवल संगठित वर्गों तक ही समित नहीं रहे बल्कि समाज के असंगठित समूहों को लाभ दिया जा सके।

## बजट में विकसित भारत की झलक : सांसद

जमशेदपुर। सांसद विद्युत वरणा महतो ने आम बजट पर कहा कि प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट में विकसित

भारत (2024) की नींव रखी गई है। यह बजट रोजगार और उन्नत खेती, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, ऊर्जा उत्पादन, घरेलू उद्योगों को बचाव और युवाओं को उन्नत प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार सृजन को दिशा में एक स्पृहासिक कदम है। पूर्वोदय योजना से विहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। आवास निर्माण, सड़क कनेक्टिविटी से ग्रामीण क्षेत्र संभरेगा। आयकर कटौतियों को 5 लाख से बढ़कर 7.5 लाख किया जाना स्वागत योग्य है।

## मोबाइल सस्ता करने से गरीबी नहीं मिलेगी : अशोक

जमशेदपुर। व्यापारी संघ के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने आम बजट को गरीब विरोधी बताया। कहा कि आज महंगाई सातवें आसमान है। जरूरी चीजें गरीब व मध्यम वर्ग नहीं खरीद पा रहा है। व्यापारी वर्ग भी उसे बेच नहीं पा रहा है। ऐसे में मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद सस्ता करने से गरीबी नहीं मिलेगी।

## मजदूर व किसान विरोधी बजट : महेंद्र पांडेय

जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमिटी के महासचिव सह बागबेड़ा मंडल कांग्रेस के पर्यवेक्षक महेंद्र कुमार पांडेय ने केंद्र सरकार के आम बजट को मजदूर, किसान व महिला विरोधी बताया। कहा कि इस बजट में महंगाई से ब्रसत जनता के लिए कुछ नहीं किया गया है। केवल आंकड़े प्रस्तुत कर देश की जनता को गुमराह किया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कांग्रेस के संकल्प पत्र में घोषित कई योजनाओं को नकल करते हुए उसे दूसरे रूप में प्रस्तुत किया है।

## बजट में जनता के हितां का ख्याल : विवेक त्रिवेदी

जमशेदपुर। सुंदरनगर निवासी भाजपा नेता विवेक त्रिवेदी ने केंद्र सरकार के आम बजट को सराहना की। कहा कि इस बार का बजट जनता की उम्मीदों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बचत करने वाले मध्यम वर्ग को टैक्स में छूट दी गई है। वहीं युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए रिस्कलड डेवलपमेंट जैसे कार्यक्रम शुरू करने पर जोर दिया गया है।

## बजट युवाओं व किसानों के हित के खिलाफ : डॉ. पवन

जमशेदपुर। चिकित्सक सह एनसीपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता डॉ. पवन पांडेय ने आम बजट को युवा और किसानों के हित के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि मध्यमवर्गीय परिवार को राहत जरूर दी गई है। लेकिन फसल उत्पादक किसानों को एमएसपी पर चुप्पी साध ली गई है। विकास के रास्ते भी का अभाव दिखा, यह बजट घोर निराशाजनक है।

## सिलिकॉन सेफ पैक प्राइवेट लिमिटेड के कामगारों को 15 दिन में मिलेगा फुल सेटलमेंट श्रम अधीक्षक के हस्तक्षेप से 55 कामगारों को मिला हक

संवाददाता। आदित्यपुर

रामकृष्ण फौजिंग लिमिटेड कंपनी के प्लॉट 5 में सिलिकॉन सेफ पैक प्राइवेट लिमिटेड के अंदर 55 ठेकेदार कर्मचारियों को श्रम अधीक्षक अविनाश के हस्तक्षेप से उनका हक मिला है। सभी कामगारों ने पिछले दिनों श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर से मिलकर अपने फुल फाइनल सेटलमेंट के लिए आवेदन दिया था। सोमवार को श्रम अधीक्षक ने त्रिपक्षीय वार्ता की और सभी कर्मचारियों को बिना सूचना के जनवरी 2024 से काम से बैठा दिए जाने की घटना को सच पाया।

इन कर्मचारियों को ठेकेदार ने न तो फुल सेटलमेंट और न ही ग्रेजुएटी दी थी। कर्मचारियों को उनका पीएफ के साथ 3 माह का वेतन भी नहीं दिया



वार्ता के बाद सिलिकॉन सेफ पैक के हटाए गए ठेका कर्मचारी।

गया था। ऐसे में सभी कर्मचारी अपना फाइनल सेटलमेंट पिछले 3 महीने से मांग रहे थे, लेकिन ठेकेदार के मैनैजमेंट इसपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। फिर कर्मचारी एकजुट होकर सरायकेला स्थित लेबर ऑफिस गए और श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर

के समक्ष अपनी बातों को रखा था। उन्होंने सिलिकॉन सेफ पैक प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांच मैनेजर टी एन पाठक और ऑपरेशन प्रमुख प्रदीप को बुलाकर त्रिपक्षीय वार्ता की साथ ही उन्हें आदेश दिया कि हटाए गए सभी कर्मचारियों उनका पूरा फुल फाइनल



इंटक नेत्री मीरा तिवारी के साथ कामगार।

सेटलमेंट, लीव, बोनस, ग्रेजुएटी सहित सभी को एक महीना का नोटिस पे एक महीना के अंदर भुगतान करें।

इस आदेश के बाद ठेकेदार के मैनैजमेंट और कर्मचारियों में सहमति बनी है और ठेकेदार ने 15 दिन के अंदर सभी कर्मचारी का फुल फाइनल

सेटलमेंट कर देने की बात कही है। इस पूरे मामले में मजदूर इंटक नेत्री मीरा तिवारी ने अहम भूमिका निभाई कर्मचारियों की तरफ से त्रिपक्षीय वार्ता में केदार महतो, रोहित, माधव ठाकुर, सपन, सोना राम और गुरुपदो शामिल थे।

## घाटशिला में लिपिक, अनुसेवक व मनरेगाकर्मी हड़ताल पर

## कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए युवा हो रहे परेशान

अंचल कार्यालय में दिन भर लगी रही युवक-युवतियों की भीड़

## ● मनरेगा का कार्य पूरे प्रखंड में टप

संवाददाता। घाटशिला

लिपिक, अनुसेवक, रोजगार सेवक, कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के हड़ताल पर चले जाने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रखंड, अंचल एवं अनुमंडल कार्यालय के लगभग सभी लिपिक हड़ताल पर हैं। इससे सरकार द्वारा चौकीदार की निकाली गई बहाली के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के युवक युवतियों की भीड़ अंचल कार्यालय में दिन भर लगी रहें।

इस संबंध में सीओ निशांत अंबर से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि लिपिक के हड़ताल पर जाने से कार्यालय का कामकाज ठप हो गया है। हालांकि प्रयास रहेगा कि बच्चों का सर्टिफिकेट समय से निकल जाए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए जिनने भी आवेदन मिले थे उन सभी आवेदनों को जांच के लिए थाना भेज दिया गया है। जांच के बाद हालांकि प्रमाण पत्र निर्गत



करने की समस्या होगी लेकिन इसका भी समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अंचल कार्यालय से पांच कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ठीक उसी तरह प्रखंड कार्यालय से चार, अनुमंडल कार्यालय से नौ कर्मचारी हड़ताल पर हैं।

वहीं मनरेगा योजना का कार्य पूरे प्रखंड में ठप पड़ गया है। मनरेगा कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं ऐसे में कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता भी हड़ताल में शामिल हैं। इससे विकास योजनाओं पर खस असर पड़ेगा। हालांकि राहत देने वाली बात यह है कि अंचल

कार्यालय के राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक हड़ताल से अलग हैं। जिसके कारण जमीन संबंधी मामले एवं छात्र-छात्राओं के लिए आय, आवासीय, जाति अन्य प्रमाण पत्र निर्गत करने में परेशानी नहीं होगी। प्रखंड कार्यालय में प्रधान लिपिक नजीर एवं अनुसेवक की हड़ताल से अभिलेख एवं संचिकाओं का कार्य ठप होने से विकास योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। प्रखंड नाजिर के हड़ताल पर जाने से वर्तमान में लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी यह है कि प्रखंड मुख्यालय में बनी दुकान के आवंटन को लेकर फॉर्म नहीं मिल पा रहा है और न ही फॉर्म जमा कर पा रहे हैं।

## बरसात के बाद अस्पताल में बढ़ती जा रही मरीजों की संख्या प्रखंड में मिले मलेरिया के तीन मरीज



घाटशिला। बरसात का मौसम शुरू होते हैं अस्पतालों में मरीजों की भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मंगलवार को अनुमंडल अस्पताल में काफी संख्या में सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित मरीज ओपीडी में पहुंचे थे। एक माह पहले तक ओपीडी में 40 से 50 मरीज जाते थे जबकि 15 जुलाई के बाद से 80 से 100 तक मरीज पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं तीन अलग-अलग गांव में मलेरिया भी धीरे-धीरे पांव पसार रहा है। ओपीडी में डॉ. रजनीश कौर द्वारा मरीज का इलाज किया जा रहा था। इसी बीच अलग-अलग गांव से एक साथ तीन मरीज मलेरिया से पीड़ित पाया गया, जिन्हें अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मलेरिया से पीड़ित केंदंगा गांव निवासी रेखा देवी महतो, पुनगोड़ा गांव के राम चंद्र भाई एवं कीताडीह गांव की कापरा माडी शामिल हैं। इस संबंध में अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. आर एन सोरेन ने बताया कि बरसात के मौसम में लोग अपने घरों में मच्छरदानी का उपयोग अधिक से अधिक करें। घर के आसपास पानी का जमाव न होने दें। बरसात में डेंगू एवं चिकनगुनिया जैसे बीमारी भी मच्छरों के काटे से ही होता है यह महत्त्व साफ पानी में ही पनपता है।

## घाटशिला कॉलेज में आज से 26 तक कारगिल विजय दिवस उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट सम्मानित



संवाददाता। घाटशिला

घाटशिला महाविद्यालय की एनसीसी इकाई द्वारा 24 से 26 जुलाई तक कारगिल विजय दिवस का समारोह पूर्वक आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन 37 झारखंड बटलियन एनसीसी के निदेशानुसार किया जा रहा है। इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में 24 जुलाई को व्याख्यान कार्यक्रम होगा। इसमें कारगिल युद्ध के इतिहास एवं परिणाम पर विमर्श किया जाएगा। 25 जुलाई को कारगिल युद्ध से संबंधित फिल्म छात्रों को दिखाया जाएगा तथा तीसरे दिन 26 जुलाई को युद्ध के नायक शहीद गणेश हांसदा के गांव जाकर श्रद्धांजलि एवं सम्मान

## एनएच 49 व 18 के संगम स्थल पर गड्डे से वाहन चालक परेशान



बहरागोड़ा। प्रखंड क्षेत्र के एन एच 49 तथा एन एच 18 के संगम स्थल पर उभरे गड्डे से वाहन चालक के साथ साथ स्थानीय लोग परेशान हैं। फ्लाई ओवर के नीचे से लेकर कोलकाता की ओर जाने वाली सड़क कई महीने पहले बन कर तैयार हुई थी। लेकिन सावन की पहली बारिश में ही सड़क में बड़े-बड़े गड्डे उभर आए हैं तथा गड्डे में कीचड़ भर गया है। जहां धूप होने पर सड़क से उड़ती धूल से तथा बारिश में कीचड़ से स्थानीय लोगों के साथ-साथ वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी सड़क के किनारे प्लस टू उच्च विद्यालय बहरागोड़ा अवस्थित होने के कारण प्लस टू को जान जोखिम में डालकर विद्यालय आना जाना करना पड़ता है। साथ ही आए दिन वाहन गड्डे फंस जाने से वाहन मालिकों को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

## कोल्हान के शिवालय मुर्गाघूट का श्री श्री सार्वजनिक प्राचीन सिदेश्वर धाम शिव मंदिर

## अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने की थी यहां शिवलिंग की पूजा

विद्या शर्मा। जादूगोड़ा

मुसाबनी-जादूगोड़ा मुख्य मार्ग किनारे मुर्गाघूट पंचायत में श्री श्री सार्वजनिक प्राचीन सिदेश्वर धाम नामक सुप्रसिद्ध शिव मंदिर है। जादूगोड़ा से तीन किलोमीटर दूर राखा कॉपर माईस से सटे 500 मीटर की ऊंची पहाड़ी पर बने इस मंदिर तक पैदल चलकर भक्त पहुंचते हैं।

कहा जाता है कि पांच पांडव ने अज्ञातवास के दौरान विराट राजा (ओडिशा) का दर्शन करने के पश्चात घाटशिला के मऊ भंडार में स्नान के पश्चात इसी शिवलिंग की पूजा की थी। मान्यता है कि इस मंदिर के शिवलिंग 500 वर्ष पूर्व अपने आप प्रकट हुए थे। गालुडीह के बाबा विनय दास ने शिवलिंग की पहचान कर



मंदिर की स्थापना की। इस शिव मंदिर ने हर साल सावन के महीने में 10 हजार से अधिक शिवभक्त

जलाभिषेक करने झारखंड के जमशेदपुर, बहरागोड़ा, पोटका के अलावा ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल

से आते हैं इस मौके पर श्री श्री सार्वजनिक प्राचीन सिदेश्वर धाम की कमिटी की ओर से सनातन सोट,

भास्कर पात्रो, अशोक नायक, सायवा हेंब्रम, सत्यनारायण महतो, सुफिट धर महतो, संजय सरकार, अरूण कुमार आदि अपनी सेवा देते हैं और कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस बाबत पूछे जाने और कमिटी के निर्मल कुमार महतो और सनातन सोट ने बताया कि यहां का शिवलिंग अपने आप प्रकट हुए हैं। यहां जो भी भक्त मन्त्रत मागतें हैं पूरी होती है। यहां मंदिर तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है। लोग पथरिले रास्ते से होकर मंदिर तक पहुंचते हैं। कई बार सड़क व जलमीनार के लिए क्षेत्र के सांसद विद्युत वरणा महतो एवं विधायक रामदास सोरेन से गुहार लगाई गई, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। फिलहाल कमिटी अपने फंड से पांच लाख की लागत से तौरा द्वार बनवा रही है।

## न्यूज अपडेट

## जीसीजेडी हाई स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह

घाटशिला। गिरिश चंद्र शुरो देवी उच्च विद्यालय मुसाबनी में मंगलवार को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण ओझा ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं सरस्वती वंदना के साथ किया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह में घाटशिला अनुमंडल से चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा पास करने वाली छात्रा आयुषी अग्रवाल, पलक सिंघानिया, जादूगोड़ा की आयुषी अग्रवाल, मऊभंडार के दीपक सिंघानिया, मुसाबनी की शुभांगी पोद्दार, मऊभंडार की ऋषिका खेतान, गालुडीह की महक कुमारी बंसल, अंकिता अग्रवाल सहित मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के टॉपर रहे 46 छात्र व छात्राओं को अंग वस्त्र व उपहार देकर सम्मानित किया गया।



## एसिया के एजीएम में उद्यमियों ने बताई समस्याएं

आदित्यपुर। स्माल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एएसिया) का एजीएम मंगलवार की देर शाम को एसिया भवन में सम्पन्न हुआ। जिसमें उद्यमियों ने अपनी समस्याएं रखीं। जिसमें मुख्य रूप से सड़कों और नालियों की दुर्दशा का जिक्र हुआ। एजीएम की अध्यक्षता एसिया अध्यक्ष इंद्र अग्रवाल ने और संचालन मनदीप सिंह ने किया। जबकि धन्यवाद ज्ञापन दशरथ उपाध्याय ने किया। मंच पर महासचिव प्रवीण गुट्टुयटिया, कोषाध्यक्ष रतन अग्रवाल मौजूद रहे। एसिया अध्यक्ष इंद्र अग्रवाल ने कहा कि हमलोगों जो 2004 से रेट लेवी लेने का मुद्दा उठाया था उसपर सफलता मिली है। उद्यमियों को अब वह देना नहीं पड़ेगा। उद्योगों को आवंटित जमीन पर 2 अगस्त की बैठक को लेकर उद्यमियों ने विचार रखे।



## विद्यालय में आयोजित हुआ स्कूल रुआर कार्यक्रम

बहरागोड़ा। प्लस टू उच्च विद्यालय परिसर में स्कूल रुआर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी केशव भारती एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुरेश कुमार महतो ने प्रखंड क्षेत्र के उपस्थित सभी शिक्षकों को विद्यालय पुनर्गठन, शिक्षक अभिभावक दिवस, मुखिया सम्मेलन, व्यावसायिक शिक्षा, निपुण भारत खेलो इज़ारखंड एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के बारे में विस्तार पूर्व दिशा निर्देश दिया। बच्चों की उपस्थिति में वृद्धि एवं विद्यालय में ठहराव व विद्यालय शिक्षा की विभिन्न भागीदारियों को बनाए रखने के लिए भी कई मार्गदर्शन दिए गए। इस मौके पर बहरागोड़ा प्लस टू उच्च विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य कमलेश सिट, स्वर्णकमल लाली, सत्यजीत पात्र आदि उपस्थित थे।



## वनपट्टा पर अभिलेख की एसडीओ ने की समीक्षा

घाटशिला। अनुमंडल कार्यालय के सभागार में अनुमंडल स्तरीय वनपट्टा को लेकर अभिलेख की समीक्षा एसडीओ सचिवालय महतो की अध्यक्षता में मंगलवार को की गई। इस मौके पर डीसीएलआर नित निखिल सुरीन ने विभिन्न अंशों तथा वन विभाग से प्राप्त अभिलेख की जांच की। डीसीएलआर ने वन विभाग एवं अंचल के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वनपट्टा के लिए दावा करने वाले लाभाभ्यां के लिए ग्राम सभा, ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में कम से कम दो तिहाई ग्रामीण की उपस्थिति हो एवं कम से कम एक तिहाई महिला की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। नजरी नक्शा एवं वन विभाग द्वारा लाभाभ्यां का मानमला दर्ज किया हुआ होना चाहिए, जिस जमीन पर दावा कर रहे हैं।



## माता शबरी रूप सज्जा के परिणाम घोषित

जमशेदपुर। सिंहभूम जिला हिन्दी साहित्य सम्मेलन (तुलसी भवन) की ओर से तुलसी जयंती समारोह के अंतर्गत करायी गयी माता शबरी रूप सज्जा प्रतियोगिता की मंगलवार को घोषणा की गई। प्रतियोगिता 13 जुलाई को आयोजित की गई थी। जिसमें नगर के 27 विद्यालयों के कुल 142 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता में कक्षा 1 से 3 के प्रतिभागियों में प्रथम-आभा महेश गोआई, द्वितीय-प्रगीता शरण, तृतीय-तनुश्री कुमारी, प्रोत्साहन पुरस्कार- वैदिका राव। इसी तरह कक्षा 4 से 6 के प्रतिभागियों में प्रथम-ईशिता, द्वितीय- मंदिरा साहु कर्मा तथा आरुषि सोना, तृतीय-शंशिका कुमारी तथा रागिनी कुमारी, प्रोत्साहन पुरस्कार- भव्या वामी, शिखा कर्नाजिया, संचिता नायर एवं ममता कुमारी को मिला।



## एस टाइप में सोमनाथ मंदिर की छटा दिखेगी

आदित्यपुर। दुर्गा पूजा में इस वर्ष सोमनाथ मंदिर की खूबसूरत छटा एन टाइप मैदान में दिखेगी। मंगलवार को सिंहभूम बाँयज क्रिकेट क्लब कमेटी ने पंडाल निर्माण का भूमिपूजन किया। पंडाल भव्य बनेगा। पंडाल 100 फीट चौड़ा और 80 फीट ऊंचा रहेगा। पूजा का कुल बजट 45 लाख रुपये है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा सोमनाथ मंदिर की आकृति यहां श्रद्धालुओं को लुभाएगी। दुर्गा पूजा कमेटी के मुख्य संरक्षक मनोज सिंह और अध्यक्ष बबलु सिंह दिनेश ने बताया कि इस बार पूरे जमशेदपुर शहर का टॉप पंडाल यहां बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मायापुर के पंडाल के कलाकार आज से ही पंडाल निर्माण में लग गए हैं। सिंहभूम बाँयज क्रिकेट क्लब कमेटी 1972 से यहां पूजा कर रही है।



## बिजली कामगार यूनियन नौ से करेगी आंदोलन

आदित्यपुर। झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन राज्य बिजली वितरण निगम के कार्यशैली के विरुद्ध क्रांति दिवस के दिन नौ अगस्त से चरणबद्ध आंदोलन करेगी। जिसकी शुरुआत जमशेदपुर से होगी। यह घोषणा मंगलवार को यहां यूनियन के महामंत्री राम कृष्ण सिंह ने प्रेसवार्ता में की। प्रेसवार्ता के बाद यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष अभियंता दीपक कुमार से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। यूनियन के महामंत्री बताया कि आज यूनियन की आपात बैठक आयदा परिसर में हुई है। बैठक में इस बात पर विरोध जताया गया कि बिजली कामगारों को मिली हुई सुविधाएं निगम ने छीन ली है। उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो नौ अगस्त से जमशेदपुर से राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जायेगा। प्रेसवार्ता में केएन सिंह, अमजदूल हक, मुकुल कुमार शामिल थे।



## ▼ ब्रीफ खबरें

## उम विद्यालय के विद्यार्थियों के बीच साइकिल का वितरण

चक्रधरपुर। राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही उन्नति का पहिया योजना के तहत मंगलवार को गोईलकेरा प्रखंड कार्यालय में कदमदीहा पंचायत स्थित नरसंडा उन्नति मध्य विद्यालय के विद्यार्थियों के बीच साइकिल का वितरण किया गया। इस मौके पर विद्यालय के कुल 33 छात्र-छात्राओं को साइकिल दी गईं, मौके पर मुख्य रूप से मौजूद प्रखंड कल्याण पदाधिकारी लालू हेम्रम ने छात्र-छात्राओं को साइकिल दी। साइकिल पाकर विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी देखी गई। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी लालू हेम्रम ने कहा कि सरकार पढ़ाई के लिए कई सुविधाएं प्रदान कर रही है।

## विभिन्न पंचायतों में अबुआ आवास योजना की जांच की

चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत डीडीसी संदीप कुमार मीणा के निर्देश पर बुधवार को जिला स्तर से गठित डीआरडीए टीम ने कई प्रखंडों में अबुआ आवास योजना की जांच की। टीम ने चक्रधरपुर, बंदगांव, सोनुआ, झीकपानी, कुमारडुंगी, जान्नाथपुर, मंझगांव और नोवामुंडी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में अबुआ आवास वित्तीय वर्ष 2023-24 अंतर्गत द्वितीय किस्त की राशि भुगतान से पूर्व लाभुकों के आवास निर्माण की जांच की। टीम ने वैसे लाभुकों से पूछताछ की किन कारणों से निर्माण में प्रगति नहीं हुई है।

## अधुरी योजनाओं को जल्द पूरा करें: बीडीओ

चक्रधरपुर। गोईलकेरा के प्रखंड कार्यालय सभागार में मंगलवार को पंचायत समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख निरामुनी कोड़ा ने की। बैठक में बीडीओ विवेक कुमार ने कहा कि अधुरी योजनाओं को जल्द पूरा करें। मुख्यमंत्री बहन-बेटे, मई-कुई योजना के बारे में जानकारी दी। इसमें 25 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं को राज्य सरकार प्रतिमाह एक हजार रुपए देगी। इसका आवेदन फॉर्म आंगनवाड़ी केंद्र में मिलेगा। इसका प्रचार-प्रस्टेज जल्द प्रत्येक पंचायत में शिविर लगाकर किया जाएगा। बैठक में पंचायत में चलने वाली विकास योजनाओं पर चर्चा की।

## 46 बीपीएल छात्रों को दी गई पाठ्य सामग्री

किरीबुरु। सेल की सीएसआर विभाग, गुवा अयस्क खान ने 23 जुलाई को गुवा क्लब में पाठ्य सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें डीएवी पब्लिक स्कूल, गुवा में पढ़ने वाले सीएसआर गांवों के 46 बीपीएल छात्रों को किताबें, कॉपियां, स्टेशनरी आइटम दिये गये। गुवा और माइस के सीएसआर के तहत आस-पास के गांवों के लगभग 50 बीपीएल छात्रों को डीएवी स्कूल में मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। सभी छात्रों को फीस, किताबें, कॉपी, स्टेशनरी आइटम, स्कूल बैग, यूनिफॉर्म जूते आदि प्रदान किए जाते हैं। अगले महीने छात्रों को यूनिफॉर्म, जूते दिए जाएंगे।

## खान मजदूर संघ ने दत्तोपथ ठेंगड़ी को कियान मजदूर

किरीबुरु। खान मजदूर संघ, किरीबुरु कार्यालय में भारतीय मजदूर संघ का 70वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक दत्तोपथ ठेंगड़ी को नमन किया एवं उनके सिद्धांतों पर चलने का प्रण लिया गया। इस कार्यक्रम में प्रमोद कुमार महंता, प्रकाश मोहंती, अवतार सिंह, रवि चंद्र नायक, सूर्य नारायण बेहरा आदि उपस्थित थे।

## सात लाभुकों के बीच बकटा का कियान वितरण

चक्रधरपुर। चक्रधरपुर के पशु चिकित्सालय प्रांगण में मंगलवार को मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत सात लाभुकों के बीच बकटा का वितरण किया गया। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य मीना जॉको, उप प्रमुख विनय प्रधान के हाथों लाभुकों को बकटा दिया गया। लाभुकों को 90 फीसदी अनुदान पर चार बकरी और एक बौदा दिया गया। मौके पर जपि सदस्य मीना जॉको और उप प्रमुख विनय प्रधान ने कहा कि रोजगार सृजन के लिए सरकार ग्रामीणों में पशुधन का वितरण कर रही है। उन्होंने लाभुकों से कहा कि पशुओं की देखभाल करें ताकि उसका लाभ मिल सके।

## ईचागढ़ विधानसभा सीट : झामुमो की वर्तमान विधायक सविता महतो को टिकट मिलना लगभग तय

## भारतीय जनता पार्टी में ऊहापोह, झारखंड मुक्ति मोर्चा में असमंजस नहीं

## ● भाजपा व झामुमो ने स्थानीय को कभी नहीं दिया टिकट

## ● भाजपा से पूर्व विधायक अरविंद व सारथी प्रमुख दावेदार

## ● खूंटी जिले के विनोद राय भी भाजपा से टिकट की जुगत में

## संवाददाता। चांडिल

आसन विधानसभा चुनाव के लिए ईचागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए नेता सक्रिय हैं। सभी जनता को अपने पक्ष में करने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं और सेवा कार्य के नाम पर खर्च भी कर रहे हैं। गौरतलब है कि ईचागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने



सविता महतो, विधायक.



अरविंद सिंह, पूर्व विधायक.



सारथी महतो, भाजपा नेत्री

## निर्मल महतो भी लड़े ईचागढ़ से चुनाव

ईचागढ़ से झामुमो का टिकट वर्तमान विधायक सविता महतो को मिलना तय माना जा रहा है। झारखंड आंदोलन को धार देने वाले निर्मल महतो की हत्या के बाद ईचागढ़ से उनके अनुज दिवंगत सुधीर महतो और सुधीर महतो की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सविता महतो को टिकट दिया जाता रहा है। दिवंगत सुधीर महतो ईचागढ़ से चुनाव

जितकर राज्य के उप मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने दो बार ईचागढ़ का प्रतिनिधित्व किया था। वहीं सविता महतो ईचागढ़ से पहला चुनाव हार गई थीं। दूसरी बार उन्होंने ईचागढ़ से विजय प्राप्त की और वर्तमान में वह ईचागढ़ की विधायक हैं। विदित हो कि शहीद निर्मल महतो ने भी चुनाव में ईचागढ़ से अपनी किस्मत आजमायी थी। वर्ष 1985 में हुए

विधानसभा चुनाव में ईचागढ़ राजघराने के युवराज कांग्रेस उम्मीदवार प्रभात कुमार आदित्यदेव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार शहीद निर्मल महतो को पराजित किया था। उस समय चुनाव में (वर्तमान में दिवंगत) प्रभात कुमार आदित्यदेव को 28786 और शहीद निर्मल महतो को 22552 मत मिले थे।

## चाईबासा में विधानसभा आवास समिति ने की समीक्षा बैठक

## सरकारी भवन, आवास में अग्निशामक यंत्र व तड़ित चालक होना चाहिए : सभापति

## ● पेयजल सुविधा की स्थिति का लिया गया जायजा

## ● समिति कई जिलों में योजना की करेगी समीक्षा

## संवाददाता। चाईबासा

पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चाईबासा परिसर सभागार में मंगलवार को झारखंड विधानसभा की आवास समिति की समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन ने की। बैठक में समिति सभापति ने जिला में पूर्व में बनाए गए सरकारी भवन, आवास की वर्तमान स्थिति, उनमें अग्निशामक यंत्र एवं तड़ित चालक जैसी सुरक्षा मानकों, पेयजल सुविधा, सरकारी गोदाम की स्थिति, भवन, आवास में शौचालय, सरकारी विद्यालयों एवं छात्रावासों की स्थिति तथा वर्तमान में चल रहे अबुआ आवास योजना आदि के अद्यतन प्रतिवेदन का जायजा लिया गया।



चाईबासा परिसर में विधानसभा आवास समिति की समीक्षा बैठक में उपस्थित सदस्य और जिले के अधिकारी.

उन्होंने कहा कि पुराने सरकारी भवन और आवास में भी अग्निशामक यंत्र और तड़ित चालक होना चाहिए। बैठक के बाद सभापति ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन ने कहा कि झारखंड विधानसभा की आवास समिति के माध्यम से 22 जुलाई से 24 जुलाई तक राज्य के पश्चिमी सिंहभूम, सिरडेगा, पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला-खरसावां जिला में स्थल

अध्ययन यात्रा की जा रही है। इसी दौरान चाईबासा परिसर सभागार में ऊर्जा, वन एवं पर्यावरण, ग्रामीण कार्य, गृह-कारा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, शिक्षा, पथ निर्माण, जल संसाधन, खान एवं भूतल, राजस्व, भवन निर्माण, राजस्व, परिवहन विभाग सहित तकनीकी विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें विभाग अंतर्गत आवास, भवन

निर्माण से संबंधित झारखंड विधानसभा में उठाए गए प्रश्न को इस जिला से संबंधित हैं। उनपर चर्चा कर संबंधित प्रश्न आधारित प्रतिवेदन विधानसभा कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। बैठक में डीडीसी संदीप कुमार मीणा, परियोजना निदेशक स्मिता कुमारी व जिला स्तरीय पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता आदि उपस्थित थे।

## समाहरणालय कर्मियों का हड़ताल दूसरे दिन भी जारी

चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में दूसरे दिन भी झारखंड राज्य अनुसूचिवीय कर्मचारी संघ (समाहरणालय संघ) द्वारा राज्य नेतृत्व के आह्वान पर नौ सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहा। राज्य स्तरीय संघ द्वारा दो वर्षों से अपनी मांगों के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। मुख्य सचिव, झारखंड सरकार को भी पत्र के माध्यम से मांगों से अवगत करते रहे हैं। हड़ताल जारी रहने के बावजूद सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गयी है। ऐसे में आम जनमानस के बीच अपने काम को लेकर असमंजस का माहौल बना हुआ है। इधर, संघ के जिलाध्यक्ष ललितेश्वर महतो ने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है हम चट्टानी एकता के साथ डटे रहेंगे और हड़ताल जारी रहेगा। जिला सचिव ने कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम टूटेंगे नहीं। सरकार को हमारी मांगों पर विचार करना होगा। संघ के उपाध्यक्ष अतुल कुमार ने कहा कि सरकार से हमें काफी उम्मीद है। जल्द ही हमारी मांगों पर सरकारिक विचार किया जायेगा। जिला कोषाध्यक्ष सुनील बड़ाई ने कहा कि हम अपनी मांगों के प्रति चट्टानी एकता के साथ डटे रहेंगे। राज्य सरकार को हमारी मांगों को जरूर पूरा करना होगा।

## न्यूज अपडेट

## बिरसा नगर के लोगों को जिप अध्यक्ष ने दिया बर्तन सेट

किरीबुरु। जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरेन ने गुवा के बिरसा नगर के लोगों को सामाजिक व धार्मिक कार्यों में सामूहिक भोजन बनाने हेतु बर्तन सेट उपलब्ध कराया। बर्तन पाकर ग्रामीण काफी खुश दिखे। उल्लेखनीय है कि बीते लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बिरसा नगर के लोगों ने लक्ष्मी सुरेन से बर्तन की समस्या बतायी थी। ग्रामीणों ने कहा था कि बस्ती के लोग काफी गरीब हैं। शादी-ब्याह या अन्य कार्यक्रम में उन्हें टेंट हाउस से भाड़े पर बर्तन लाना पड़ता है, जिसमें काफी पैसा लग जाता है। उतना पैसा खर्च करना उनके लिए काफी मुश्किल होता है, लक्ष्मी सुरेन ने आश्वासन दिया था कि चुनाव बाद वह उनकी मांगों को पूरा कर देंगी। मंगलवार को उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया।



## झामुमो की बैठक में शामिल होने के लिए रांची रवाना

चक्रधरपुर। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर रांची के सांहराय भवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के केन्द्रीय कमेटी की मंगलवार को बैठक होगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए मंगलवार की सुबह झामुमो नेता व कार्यकर्ता रांची के लिए रवाना हुए। इस बैठक में शामिल होने के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिला व चक्रधरपुर प्रखंड कमेटी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता प्रखंड कार्यालय के समीप इकट्ठा हुए। वहां से सभी अलग-अलग वाहनों में रांची के लिए रवाना हुए। इस संबंध में विधायक प्रतिनिधि पीरू हेम्रम ने बताया कि सांहराय भवन में होने वाली बैठक में केन्द्रीय कार्यकर्ता अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिला के सभी झामुमो केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सदस्य बैठक में शामिल होंगे।



## आस ने डीसी के नाम बीडीओ को सौंपा 10 सूत्री मांगपत्र

किरीबुरु। आदिवासी समन्वय समिति (आस) संयोजक सुशील बारला के नेतृत्व में ग्राम सभा सदस्यों, प्रबुद्ध जनों ने 22 जुलाई को डीसी के नाम गोईलकेरा बीडीओ को 10 सूत्री मांगपत्र सौंपा। मांगपत्र में सुशील बारला ने कहा है कि गोईलकेरा प्रखंड अन्तर्गत सारुगाड़ा पंचायत के लोग आजादी के 78 वर्षों बाद भी संविधान प्रदत्त मौलिक सुविधाओं से वंचित हैं। पंचायत के हिन्दू गांव में 93 परिवार रहते हैं, जिसकी जनसंख्या-533 है। 1 से 5 साल तक के बच्चों की संख्या 48 है। इसके बावजूद हिन्दू गांव में विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है। हिन्दू एवं साऊसाल के बीच चला 4 लस से अधूरा है। प्रतिनिधिमंडल में संयोजक सुशील बारला के अलावा मुंडा जॉन सिरूम, श्याम सुन्दर लोमणा, प्रेम सिंह चरोवा आदि शामिल थे।



## मेघाहातुबुरु श्रमिक संघ ने बीएमएस का मनाया स्थापना

किरीबुरु। 23 जुलाई को मेघाहातुबुरु श्रमिक संघ कार्यालय में भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) का 70वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ महामंत्री जगन्नाथ चातर द्वारा बीएमएस का झंडाटोलन कर किया गया। तत्पश्चात संघ के संस्थापक, विचारक दत्तोपथ ठेंगड़ी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। आज से 70 साल पहले संघ विचारक दत्तोपथ ठेंगड़ी ने आज ही के दिन 23 जुलाई 1955 को भोपाल में बीएमएस की स्थापना की थी। स्थापना दिवस कार्यक्रम में भारतीय मजदूर संघ के जमशेदपुर विभाग उप प्रमुख अमित कुमार झा, पश्चिमी सिंहभूम जिला मंत्री धनुष्येय लागुगी, जिला कोषाध्यक्ष सरगोया अंगारिया, मेघाहातुबुरु श्रमिक संघ के अध्यक्ष शिव शंकर सिंह, पिपूष गोपाल, श्यामलाल पूर्ति, गोवर्धन शर्मा, सुनील गागराई, सानिका गुडिया, सुनील आदि शामिल थे।



## द्वारका-सोमनाथ दर्शन के लिए रवाना हुए 31 श्रद्धालु



बस को हरी झंडी दिखा कर रवाना करते बीडीओ कीकू महतो.

## संवाददाता। चांडिल

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत सरायकेला-खरसावां जिले से कुल 31 चर्चनित हिंदू धर्मावलंबी द्वारका-सोमनाथ तीर्थ दर्शन के लिए रवाना हुए। तीर्थ दर्शन के लिए रवाना होने वालों में 20 श्रद्धालु चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनमें कुकड़ प्रखंड के आठ, ईचागढ़ के छह और नीमडीह के छह श्रद्धालु शामिल हैं। इसके अलावा जिले के राजनगर प्रखंड से कुल 11 श्रद्धालु द्वारका-सोमनाथ तीर्थ दर्शन के लिए रवाना हुए। कुकड़, ईचागढ़ और नीमडीह प्रखंड के कुल 20 श्रद्धालुओं को ईचागढ़ के प्रखंड

विकास पदाधिकारी कीकू महतो ने शुभकामना देते हुए चौका मोड़ से विदा किया। सभी श्रद्धालु बस से रांची के हटिया स्टेशन के लिए रवाना हुए। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखा कर यात्रियों की बस को रवाना किया। वहीं राजनगर के श्रद्धालुओं को जिला मुख्यालय से उप विकास आयुक्त ने रवाना किया। भारत गौरव ट्रेन से जाएंगे द्वारका-सोमनाथ : श्रद्धालुओं के साथ नौडल पदाधिकारी के रूप में जिला स्तरीय पर्यटन विशेषज्ञ सौरव साव द्वारका-सोमनाथ जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि झारखंड से एक हजार श्रद्धालु भारत गौरव स्पेशल ट्रेन से हटिया से रवाना होंगे।

## ग्रामीणों ने यातायात सेवा बहाल करने की मांग की

चक्रधरपुर। पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव प्रखंड के सुदुरवर्ती क्षेत्र पोडोमोड़ गांव में यातायात सुविधा नहीं रहने को लेकर स्थानीय ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गांव में ग्रामीण बस सेवा योजना के तहत बस सेवा चालू करने की मांग को लेकर मंगलवार को गांव में बैठक हुई। बैठक में सांसद जोबा माझी के पुत्र सह झामुमो युवा नेता जगत माझी शामिल हुए। ग्रामीणों ने सिन्दुरीबेड़ा व अन्य गांवों में कई स्थानों पर पक्की सड़क निर्माण कराने को लेकर पत्र भी सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों की समस्या सुनने पर झामुमो युवा नेता जगत माझी ने जल्द ही समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना के तहत बस सेवा चालू होने से ग्रामीणों को लाभ पहुंचेगा। बैठक में गांव के बासु बर्हो समेत अन्य महिला-पुरुष ग्रामीण मौजूद थे।



ग्रामीणों की समस्या सुनते जगत.

## मंझगांव विस से ही कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का लिया निर्णय



फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में कांग्रेस की बैठक में शामिल नेता.

## संवाददाता। चाईबासा

कुमारडुंगी फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में मंझगांव विधानसभा कांग्रेस ने मंगलवार को विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक की। बैठक की अध्यक्षता कुमारडुंगी प्रखंड अध्यक्ष सुखलाल हेम्रम ने की। विधानसभा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने को लेकर रणनीति तैयार की। कांग्रेस किसी भी सूत्र में मंझगांव विधानसभा से कमजोर नहीं है। मंझगांव विधानसभा कांग्रेस प्रदेश के आला अधिकारियों को ये संदेश देने का काम कर रही है कि यहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। विधानसभा के हर बूथ पर पांच मजबूत लोगों को टीम तैयार कर जाएंगे। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि

अब गठबंधन के तहत कांग्रेस को एक बार मौका मिलना चाहिए। इसके लिए मंझगांव विधानसभा (53) कांग्रेस के आला अधिकारियों ने जिला से प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर तक सभी कांग्रेस पदाधिकारियों को इससे अवगत कराया। आगामी संगठन बैठक की तैयारी को लेकर मंझारी प्रखंड भरभरिया में 27 जुलाई को 9 बजे बैठक होगी। इसमें मंझगांव विधानसभा के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भाग लेंगे। बैठक की मुख्य वक्ता अविभाजित विहार के विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर देवेन्द्र नाथ चंपिया, ओबीसी प्रदेश उपाध्यक्ष मायाधर बेहरा, युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव दीनबन्धु बोयपाई, जिला मुख्य संगठक नूतन पिंगुवा, आदिवासी चैयमैन देवराज चातर आदि ने संबोधित किया।

## प्रतिक्रिया

पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर, चाईबासा, किरीबुरु में अधिकारियों, नेताओं व आमलोगों ने दिया अपना-अपना मतव्य

## किसी ने कहा टैक्स स्लैब में ज्यादा बदलाव नहीं तो किसी ने कहा बजट से सबको है राहत

## आम लोगों को राहत नहीं : पद्माकेश दुबे

चक्रधरपुर निवासी एफसीए पद्माकेश दुबे ने कहा कि इस बजट से महंगाई बढ़ेगी। आम लोगों को बजट से राहत नहीं है। टैक्स स्लैब में 10 लाख रुपए तक में छूट दिया जाना चाहिए था। टैक्स स्लैब में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। वहीं शेयर मार्केट के निवेश में टैक्स लगा दिया है। इससे शेयर मार्केट में निवेश करने वालों में कमी आएगी।

## बजट में किसानों का रखा ध्यान : रमेश

चक्रधरपुर निवासी किसान रमेश महतो ने कहा कि इस बजट में किसानों का ध्यान रखा गया है। वहीं मत्स्य पालन करने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी। बजट में सिंचाई की व्यवस्था पर ध्यान देने की बात कही गई है। इससे किसानों को लाभ मिलेगा। किसानों को नई तकनीक के माध्यम से खेती करने से संबंधित बजट में रखा गया है।

## रेलवे सुरक्षा का उल्लेख नहीं : सन्नी सिंकू

पश्चिम सिंहभूम कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष सन्नी सिंकू ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश की गई बजट में रेलवे सुरक्षा, रेलवे भर्ती जैसी जरूरी आवश्यकताओं का उल्लेख नहीं है, जबकि रेलवे में बेहतर कदम हैं। लेकिन सारंडा व झारखंड की बंद खदानों को खोलकर हजारों बेरोजगारों को रोजगार का रास्ता खोलने का प्रयास होना चाहिए था।

## आयकर में थोड़ी राहत मिलेगी : अशोक

मेघाहातुबुरु के सेलकर्म अशोक पाण ने कहा कि इस बजट में वेतनभोगी सेलकर्मियों को आयकर में थोड़ी राहत मिलेगी। शिक्षित युवाओं को इंटरनेशनल का लाभ दिया जाना बेहतर कदम है। लेकिन सारंडा व झारखंड की बंद खदानों को खोलकर हजारों बेरोजगारों को रोजगार का रास्ता खोलने का प्रयास होना चाहिए था।

## सभी के लिए राहत वाली बजट : वीरेन्द्र मिश्रा

सेल के ठेकेदार वीरेन्द्र मिश्रा ने कहा कि इस बार के बजट में सबके लिये कुछ न कुछ राहत दी गई है। लगभग 80 करोड़ गरीबों को पांच साल तक के लिये अनाज की सुविधा, एक करोड़ गरीबों को पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। इस बजट में किसानों व युवाओं के लिये बेहतर योजना लाई है। बजट में किसानों के लिये प्रावधान किया गया है।

## पूर्व की तरह ही है यह बजट : विजय सिंह

कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष विजय सिंह सामड ने कहा कि यह बजट पूर्व की तरह ही है। इस वर्ष के बजट में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। बजट में आम लोगों का ध्यान नहीं रखा गया है। एक ओर सरकार ऊर्जा बचाने के लिए सोलर सिस्टम पर ध्यान देने की बात कहती है, दूसरी ओर सोलर सिस्टम को महंगा किया जा रहा है।

## पूरे देश में चौतरफा विकास होगा : पवन

भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष पवन शंकर पांडेय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पूरे देश में चौतरफा विकास करेगा। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, युवतियों, महिलाओं के हितार्थ और विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों की अनदेखी की गई है। इसमें सभी वर्ग के विकास पर ध्यान दिया गया है। खास कर जनजातीय समुदाय पर भी ध्यान दिया गया है।

## काँपी-पेस्टल व सरकार बचाओ बजट : त्रिशानु

सामाजिक कार्यकर्ता त्रिशानु राय ने केन्द्र सरकार पर काँपी-पेस्ट और सरकार बचाओ बजट पेश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इसमें नौजवानों, किसानों और विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों की अनदेखी की गई है। बजट भाषण दिखावे पर ज्यादा केंद्रित रहा है। प्रधानमंत्री इंटरनेशनल योजना की घोषणा की है।

## रोजगार के मिलेंगे अवसर : रामाधार

सेल के ठेकेदार रामाधार सिंह ने कहा कि इस बजट में वेतन भोगी कर्मचारियों व अन्य को टैक्स में थोड़ा लाभ मिलेगा। युवाओं को रोजगार के नये अवसर मिलेंगे, इंटरनेशनल योजना से एक करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा। सोलर ऊर्जा का बढ़ावा देने के प्रयास के साथ सोना-चांदी की कीमत को घटाना जायेगा। इसका लाभ लोगों को मिलेगा। इंटरनेशनल में सैलरी बेहतर कदम है।

## हर माह डेढ़ हजार रुपए टैक्स बचेगा : अवधेश

सेल की झारखंड खान समूह के ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश कुमार ने कहा कि बजट में सैलरी क्लास के लोगों को कुछ राहत मिली है। इससे हर माह लगभग डेढ़ हजार रुपये टैक्स बचेगा। सैलरी क्लास को जैसी ऊर्जा का बढ़ावा देने के प्रयास के साथ सोना-चांदी की कीमत को घटाना जायेगा। इसका लाभ लोगों को मिलेगा। इंटरनेशनल में सैलरी बेहतर कदम है।





# Her Story



रसोई के बर्तन

## चटखारा

### कुछ मीठा हो जाए

रानी प्रसाद  
पाक कला विशेषज्ञ

मिठास की ललक कभी-कभी ही जाती है. ऐसे में बर्फी, खीर, लड्डू जैसे पारंपरिक मीठा खाएं, या फिर वाफेल, केक, पेस्ट्री... पसंद आपकी है. कुकरी एक्सपर्ट रानी प्रसाद लेकर आई हैं आज ऐसे ही कुछ व्यंजन...

#### पके आम की मिठाई



ये चाहिए  
पका हुआ मीठा आम 2 (गुदा निकाला हुआ) छेना या पनीर 200 ग्राम, चीनी एक कप या स्वाद अनुसार, मिल्क पाउडर 100 ग्राम, दूध एक कप, ताजा दही एक टेबल स्पून, इलायची पाउडर 1 टी स्पून, नारियल बुरादा 4 टी स्पून.

ऐसे बनाएं  
सबसे पहले पके हुए आम को छेना और चीनी के साथ मिक्सर के जार में बिल्कुल महीन पीस लें. इसमें पानी जरा भी ना डालें. अब एक मोटे तले के पैन में दूध डालें और उसमें मिल्क पाउडर डालकर धीमे-धीमे चला लें ताकि लम्ब बिल्कुल ना रहे. अब इसे गैस पर चढ़ा दें. गैस का आंच मीडियम रखें और इसे लगातार चलाते रहें फिर इसमें आम, छेना और चीनी का पल्प मिला दें. इसे लगातार चलाते रहें. तीन-चार मिनट के बाद इसमें दही डाल दें और इलायची पाउडर भी डाल दें. थोड़ी देर में यह मिक्सर पैन में सिमट सिमट कर बीच में आने लगेगा और सूखा सूखा लगने लगेगा. इसे बहुत ज्यादा नहीं सुखाना है लेकिन जब यह पूरा पैन छोड़ दें तब गैस को हम ऑफ कर देना है. 10 से 12 मिनट में यह पूरी मिठाई बनकर तैयार हो जाती है. अब जब यह ठंडा हो जाए तब इसके गोल-गोल लड्डू बनाएं और नारियल बुरादा में कोट करके सर्व करें. यह लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं.

#### वाफेल्स



ये चाहिए  
मैदा एक कप, दूध एक कप, चीनी वन फोथ्र कप (पिसी हुई), शुद्ध घी या बटर 2 टेबल स्पून, खाने वाला सोडा दो चुटकी, बेकिंग पाउडर आधा टीस्पून बेनिना एसएस 1 टी स्पून, ऊपर से सजाने के लिए चॉकलेट सॉस.

ऐसे बनाएं  
सबसे पहले मैदा चीनी और दूध को एक साथ मिक्स कर लें. उसके बाद इसमें घी या बटर खाने वाला सोडा और बेकिंग पाउडर मिला लें. इसे प्री मिक्स करना है बहुत ज्यादा फेंटना नहीं है, इसके बाद वेफल मेकर को हीट करें. 2 मिनट. उसके बाद उसे ब्रश से ग्रीस करें और तैयार बटर को एक चम्मच के मदद से बीच में एक जगह डालें यह अपने आप धीरे-धीरे पूरे वाफेल मेकर में फैल जाएगा. उसके बाद इसे सेट होने के लिए आधा मिनट छोड़ दें तब परचात वेफल मेकर का ढक्कन बंद कर दें जब इसकी बत्ती बंद हो जाएगी तब इसे खोलकर देखें. अगर आपको और ज्यादा क्रिस्प चाहिए होगा तो इसे एक दो मिनट और पका लें और नहीं तो उतने पर ही इसे निकाल दें. (इसे बनने में 7 से 8 मिनट का समय लगता है) वेफल मेकर से इसे निकालने के बाद इसे वायर स्टैंड पर रखें ताकि जो स्टीम निकले वह इसे सॉगी ना बना दें. जब यह ठंडा हो जाए तब इस पर मनपसंद चॉकलेट सॉस अथवा वनीला आइसक्रीम डालकर सर्व करें. यह बच्चों को बहुत पसंद है. 1 कप मैदा से पूरे 8 वाफेल्स बनकर तैयार हो जाते हैं.

### इन पौधों के संग

लंबे इंतजार के बाद झारखंड में राहत की बूंदे बरस रही हैं और खूब बरस रही हैं. पेड़-पौधे पर पानी की बूंदे जब जादुई असर दिखाती हैं, बागवानी के लिए मन मचल जाता है. चाहे आपके पास बड़ा बगीचा हो या महज एक छोटी सी बालकनी, हरियाली को समेट लाने का आपका हक बराबर का है. आइए, कुछ ऐसे पौधों की बात करें जिसे लगाकर आपकी रचनात्मकता संतुप्त होगी...

#### कोलियस

इसकी रंग-बिरंगी और छोटी बड़ी पत्तियां बेहद खूबसूरत लगती हैं. इस पौधे को अधिक देखभाल की भी जरूरत नहीं होती है और ये साल के बारह महीने हरा-भरा रहता है. कोलियस आपके मानसून गार्डन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है. इसकी पत्तियां हरे, लाल, गुलाबी और बैंगनी रंग में आती हैं.

#### जीनिया

जीनिया की खासियत है कि ये जहां लगे होते हैं, तितलियां मंडरती नजर आती हैं. फूल काफी आकर्षक और सुंदर होते हैं, जो कई रंगों में मिलते हैं. इन पौधों को लगाना काफी आसान है और ये जल्दी प्रोथ करते हैं. इन्हें गमलों में भी उतनी ही सहजता से लगाया जा सकता.



पिटुनिया

पिटुनिया ये कम रखरखाव वाले फूल बरसात में लगाएंगे तो शरद ऋतु तक आपको इनकी सुंदरता नजर आएगी. पौधे की किस्म के आधार पर, हमें कई अलग-अलग प्रकार, लम्बाई, और रंगों के पिटुनिया मिल सकते हैं. लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी, हल्का नीला, पीला और लगभग सभी रंगों के फूल देख सकते हैं.

#### बेगोनिया

ये छाया-प्रिय पौधे मानसून उद्यानों के लिए बेहतर हैं. अपने सुंदर फूलों और आकर्षक पत्तियों के साथ, बेगोनिया किसी भी बाहरी स्थान में सुंदर लगते हैं. इंडोर प्लांट के रूप में इन्हें लगाएंगे तो पौधे खूबसूरत तो लगेंगे ही, नमी भी सोखेंगे.

#### पीस लिली

अपने सुंदर सफेद फूलों और चमकदार हरी पत्तियों के लिए जाना जाने वाला पीस लिली कम रोशनी की स्थिति में पनपता है, जिससे यह आपके घर के किसी भी कोने को रोशन करने के लिए एकदम सही है.

#### स्पाइडर प्लांट

इसकी सफेद धारियों वाली अपनी लंबी, धनुषाकार पत्तियां होती हैं. इनडोर के लिए उपयुक्त है. बोस्टन फर्न और स्नेक प्लांट भी इंडोर में लगा सकते हैं.

#### हैगिंग बास्केट



मानसून में घर को आकर्षक दिखाने के लिए आइवी या फर्न जैसे पीछे आने वाले पौधों को रंगीन हैगिंग बास्केट में लगाएं.

#### रेन बूट प्लांट्स

पुराने रेन बूट्स को मिट्टी से भरकर और जीवंत फूल लगाकर उनका फिर उपयोग करें.

### फैशन जलवा स्कार्फ का

फैशन और स्टाइल के लिए हम महिलाओं के पास ड्रेसिंग के कई ऑप्शंस हैं, वहीं ड्रेसिंग के साथ पेश-अप करने वाले कई डिफरेंट आइटम मार्केट में मिल जाते हैं. ऐसा ही एक एसेसरीज है स्कार्फ. यह इन दिनों खूब ट्रेंड में है. इसे न केवल कुरतियों बल्कि वन पीस, टयुनिक, टीशर्ट, क्रॉप शर्ट आदि वेस्टर्न ड्रेसिंग के साथ भी इन दिनों कैरी किया जा रहा है. आइए स्कार्फ की कुछ वेरायटी और उन्हें कैरी करने के अंदाज पर करें चर्चा-

■ एनिमल प्रिंट वाली स्कार्फ  
एनिमल प्रिंट खास तौर पर टाइगर प्रिंट की स्कार्फ इन दिनों काफी ट्रेंड में है. अगर वेस्टर्न पहन रही हैं तो टाइगर की प्रिंट वाली स्कार्फ लुक को बोल्ड बनाएगा. लाइट कलर या ब्लैक कलर की वन पीस के साथ इसे कैरी करें. सुंदर और अद्विष्टत्व लगेगा.

■ रेड कलर के डॉट प्रिंट वाली स्कार्फ  
यह स्कार्फ जादू सा असर दिखाएगा जब सफेद प्लेन टीशर्ट और ब्लू जींस कैरी करें. थोड़े डिफरेंट लुक के लिए आप इसमें एक नॉट लगा लें. डॉट प्रिंट का रेड स्कार्फ

व्हाइट कुरती के साथ भी गजब जाएगा. इसलिए वार्डरोब में एक ऐसा स्कार्फ रखें

■ वी-आकार की प्रिंटेड स्कार्फ  
वेस्टर्न ड्रेसिंग के साथ तो वी-आकार की प्रिंटेड स्कार्फ चार चांद लगाएगी ही, पारंपरिक कपड़ों पर इसे आजमाना आपको भीड़ से अलग बनाएगी. प्लेन कुरती के साथ इसे ड्रेप करें. इसे स्टाइल करने के लिए गले के पास रखें और दोनों छोरों को गले में घुमा कर आपकी तरफ कर लें. यह देखने में काफी खूबसूरत लगेंगी.

संयोजन : वैतना झा, डिजाइनिंग - खुशनुमा कुमारी

### मास्टर बेडरूम



# खुशनुमा अहसासों का ठौर

अमित कुमार पांडेय  
(इंटीरियर डिजाइनर)

किसी घर या अपार्टमेंट में मुख्य शयन कक्ष यानी मास्टर बेडरूम आम तौर पर अन्य बेडरूम से बड़ा होता है. इसमें आम तौर पर घर का मुखिया या उसके सदस्य रहते हैं. मास्टर बेडरूम निजी जरूरतों को पूरा करने वाला तो होना ही चाहिए, घर के मुख्य सदस्य का शयनकक्ष होने के नाते ऐसा होना चाहिए जिसमें की भी मौजूदगी के लिए, साथ में एक खूबसूरत समय गुजारने के लिए भी सुविधा-सहूलियत हो. इंटीरियर डिजाइनर अमित पांडेय बता रहे हैं कि कैसे हो किसी घर/अपार्टमेंट का मास्टर बेडरूम...

#### बढ़प्पन यहां भी

मास्टर बेडरूम को साइज अन्य बेडरूम के साइज से बड़े होना चाहिए. इसके बेड का साइज भी बड़ा हो. मास्टर बेडरूम के बेड का साइज 7 फीट बाय 7 फीट का होना चाहिए. अगर पोसिबल हो तो बेड के अंदर से एक और बेड निकालने की सुविधा हो जिसे स्लाइडिंग बेड बोलते हैं. इससे कभी बच्चे, पोते या पोती या अन्य निकट संबंधी साथ में सोना चाहे तो सो सके.

#### बैठने की जगह

ऐसे तो बैठने की जगह लिविंग रूम में होती है, लेकिन मास्टर बेडरूम में भी इतनी जगह होनी चाहिए कि उसमें 2 सीटर सोफा और दो मुवेबल चेयर भी आ जाए. जगह हो तो साथ में एक कॉफी टेबल भी. अपने बेडरूम को रॉयल्टी का टच देने के लिए विंग चेयर का विकल्प चुन सकते हैं.

#### कंफर्ट का यह कोना

कभी अपने घर का फैमिली मेंबर बच्चे बहू या पोते पोती है तो उनका खेलना बैठने की जगह हो. चाहे तो एक कोने में लोअर सिटिंग व्यवस्था रख सकते हैं जहां बच्चों के साथ खेलना या पसंद की किताबें पढ़ना या फिर संगीत का लुफ उठाना बेहतर अनुभव हो.

#### एक छोटा सा स्टीडी टेबल भी

मास्टर बेडरूम में अगर संभव हो तो एक स्टीडी टेबल भी जरूर सेट करें. कभी कुछ पढ़ने-लिखने के लिए यह जगह मुफीद रहेगी.

#### वार्डरोब हो ऐसा



वार्डरोब को काफी सलीके से प्ले करना होता है. यह सुविधाजनक तो हो ही, एक सेलिब्रेटी का अहसास दिलाने वाला भी हो. बेडरूम में एक हिस्सा वॉक-इन वॉर्डरोब का हो जिसमें अपने कपड़े, जूते और अन्य सामान व्यवस्थित और दृश्यमान तरीके से रख पाएं. सरल शब्दों में कहे तो आप आसानी से अलमारी में जाकर सामान को देख पाएंगे.

#### खूबसूरत समय अपनों के संग

मास्टर बेडरूम का टीवी ऐसा प्लान होना चाहिए कभी भी मूवी या क्रिकेट पूरी फैमिली बैठ कर देख सके. अगर म्यूजिक का शौक हो तो स्पीकर या रेडियो के लिए भी जगह सुनिश्चित करें.

#### लैंप

बेड के दोनों साइड टेबल के फ्लोर लैंप का बंदोबस्त करें जिससे कभी बेड पर लेटे-बैटे कुछ पढ़ने का जो करे तो आराम से किया जा सके. आर्ट वक को हाइलाइट करने वाले कुछ डेकोर लैंप भी लगावाएं.

#### साज-संवार के लिए

मास्टर बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल की खास अहमियत है. इन दिनों के ट्रेंड के अनुसार बड़े साइज की मुवेबल मिरर मास्टर बेडरूम में लगाए जा रहे हैं जिसमें श्रीमती जी अपनी सुविधा के अनुसार बेड पर या सोफा पर या चेयर पर बेठकर सजे और संवरे.

#### खुला-खुला सा अहसास

मास्टर बेडरूम की खिड़की थोड़ी बड़ी होनी चाहिए जिससे धूप और हवा अच्छी तरह से घर में प्रवेश करें क्रॉस वेंटिलेशन अगर हो पाए तो बहुत ही अच्छा होगा. इन दिनों मास्टर बेडरूम की बालकनी से सटे दरवाजे स्लाइडिंग और शीशे के बनाए जा रहे हैं जिसे जरूरत पड़ने पर ओपन करने से खुला-खुला सा अहसास होता है और बालकनी व बाहर की हरियाली खूबसूरत नजारे सुलभ कराती है.


#### वॉलपेपर, फोटो फ्रेम

आप मास्टर बेडरूम की दीवारों पर वॉलपेपर लगा सकते हैं. दीवार कला के लिए फूलों और धारियों जैसे विविध डिजाइन उपलब्ध हैं जो कमरे को एक माहौल देंगे. ये दीवार और कमरे की सजावट से मेल खाते हों. फीके और गहरे रंगों से बचें. इसके बजाय, आंखों को सुकून देने वाले पेस्टल और हल्के शैड वाले रंगों का चुनाव करें. पर्सनल टच देने के लिए फोटो फ्रेम में खुशनुमा पलों को समेट कर लगाएं.

### किसमें पकाएं किसमें बनाएं

पुराने जमाने में सोना-चांदी के बर्तनों में राजा-महाराजों के खाने बनाए और परोसे जाते थे. आयुर्वेद की माने तो सोना एक गाम धातु है. इससे बने बर्तनों में खाना खाने से हमारा शरीर अंदर और बाहर से मजबूत और बलवान बनता है. यह आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है. वहीं चांदी ठंडी धातु मानी जाती है, शरीर को शांत रखती है और पित्त दोष, कफ और वायु दोष को नियंत्रित करती है. हालांकि सोने और चांदी के बर्तन खरीदना आज हर किसी के बस की बात नहीं. खाना बनाने के लिए इन दिनों कई तरह के बरतन उपयोग में लिए जाते हैं. हर बर्तन की अपनी खासियत और अपनी कमियां हैं. आइए इन बर्तनों की चर्चा करें-

#### कांसे के बर्तन




सोने-चांदी के बर्तनों के बाद सब से अच्छे बर्तन कांसे के माने जाते हैं. इन बर्तनों में पकाने पर खाने के पोषक तत्व 97% तक बरकरार रहते हैं. इन बर्तनों में खाना पकाने और खाने से खून साफ होता है. हालांकि खट्टी चीज इन बर्तनों में पकाने और परोसने से बचना चाहिए.

#### पीतल के बर्तन



पीतल के बर्तन भी बेहतर माने जाते हैं. यह भी 94% तक पोषक तत्व बरकरार रखते हैं. इन बर्तनों में खाना पकाने से पेट में कोड़े की समस्या कम रहती है. कफ और वायु दोष भी नहीं होता है. इन बर्तनों में ज्यादा एपिडिक चीज पकाने से बचना चाहिए.

#### लोहे व कास्ट आयरन के बर्तन



लोहे व कास्ट आयरन के बर्तन इन दिनों खूब चलन में हैं. ये प्राकृतिक रूप से नॉन-स्टिक क्वालिटी वाले होते हैं, जिससे खाना बनाना आसान रहता है. जिन लोगों को एनीमिया है, उन्हें इन बर्तनों में पका भोजन खाना चाहिए. इन बर्तनों में खट्टी चीजें नहीं रखनी या बनानी चाहिए. वरना यह विषैली हो जाती है.

#### मिट्टी के बर्तन



मिट्टी के बर्तन करीब एक सदी के बाद फिर से खूब चलन में हैं. रेस्रॉस से घर तक इंटीरियर मिट्टी के बर्तनों में पकाये खाने के पोषक तत्वों को 100% तक बरकरार रखते हैं. लेकिन यह पॉलिश किए हुए नहीं होनी चाहिए. दूध और उसे बनी चीजों के लिए यह बर्तन परफेक्ट है.





# केंद्रीय बजट को सत्ताधारी दलों के नेताओं ने सराहा, तो विपक्षी पार्टियों ने की आलोचना

हजारीबाग । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार का पहला बजट मंगलवार को पेश किया। बजट में नौकरियों और रोजगार को बढ़ावा देने के उपायों की घोषणा की गई है, जो चुनाव अभियान की प्रतिवद्धि है जिसमें युवाओं में बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दे के रूप में उभरी थी। साथ ही, हर बजट में चर्चा का विषय रहने वाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान के बराबर ही आवंटन मिला है। इस पर जिले में मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई। सत्ताधारी गठबंधन के लोगों ने जहां इसको सराहा, वहीं विपक्ष ने इसको नकार दिया।

## किसने क्या कहा

ने आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट विशेष रूप से अन्नदाताओं और महिलाओं की समृद्धि, युवाओं के रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित है। विकास भारत के इस बजट में हर वर्ग का विशेष ख्याल रखा गया है। यह कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार एवं कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा संरक्षण, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास और नई पीढ़ी के सुधार, चतुर्दिक समृद्धि एवं सशक्त विकास को समर्पित बजट है।

जदयू नेता राकेश ठाकुर ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बजट देश को प्रगति की ओर ले जाने वाला है। इसमें युवाओं को चार करोड़ रोजगार देने की बात कही गई है। बड़ी कंपनियों में एक करोड़ नौकरी में आरक्षण को व्यवस्था सराहनीय है। सोमा शुल्क में कटौती होने से चमड़े के समान, सोना चांदी, आभूषण, मोबाइल फोन व चार्जर इत्यादि सस्ते होंगे। मध्यम वर्ग को पूंजीगत लाभ की सीमा में छूट इत्यादि से समाज में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। आयकर की दरों में कटौती और रियायत भी दी गई है। खासकर नौकरी पेशा वालों को 25000 हजार की छूट स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ा दी गई है।

कांग्रेस नेता डॉ. आरसी प्रसाद मेहता ने कहा कि बजट में आटा और डाटा को महंगा किया गया है जिसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, यह बजट गरीबों, किसानों, बेरोजगारों, छात्रों, मध्यम व्यापारी वर्ग को हतोत्साहित करने वाला एवं अमीरों, पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाला चुनावी जुमला नुमा बजट है। यह बजट हतोत्साह का परिचायक है एवं 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है।

प्रदेश राजद कार्य समिति सह समाज सेवी स शांति समिति सदस्य संजय मलिक ने कहा कि केंद्र सरकार का यह बजट झूठ की बुनियाद पर बनाया गया है। भारत की मुद्रास्फीति कम और स्थिर बनी हुई है, जबकि हकीकत ये है कि थोक महंगाई 16 महीने के उच्चस्तर पर जबकि खुदरा महंगाई चार महीने के उच्चस्तर पर है। ये आंकड़े जून महीने के हैं। पिछले 10 वर्षों से सरकार चीख रही थी, लेकिन आज पहली बार करोड़ों शिक्षित युवा कार्य के अभाव में बेकार बैठे हैं। बजट में फिर से एक बार उद्योगपतियों का विशेष ध्यान रखा गया है। यह गरीबी अधिक बढ़ेगी। यह बजट नए बोरों में पुराने चावल के समान है।

हजारीबाग यूथ विंग के संरक्षक चंद्र प्रकाश जैन ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट आम जनता, युवा वर्ग, महिला और किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। सभी को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। बढ़ती महंगाई भी काफी कम होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र पर फोकस किया गया है। गरीब, वंचित लोगों को इस बजट से काफी राहत मिलेगी। महिला विकास के लिए तीन लाख करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है। वहीं युवाओं को नौकरी दी जाएगी।

भाजपा नेत्री शेफाली गुप्ता

जदयू नेता राकेश ठाकुर

कांग्रेस नेता बिनोद सिंह

राजत नेता संजय मलिक

चंद्र प्रकाश जैन

भाजपा नेता भैया अभिमन्यु प्रसाद ने केंद्रीय बजट को जनता के हित में बताया। कहा इस बजट से आम जन को बहुत फायदा मिलने वाला है। बजट में युवा, किसान, महिला के लिए काफी कुछ है। शिक्षा बजट पर 30 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। भारत की जनता ने जो भाजपा पर भरोसा जताया था उस पर यह बजट खरा उतरता है। बजट में खासकर किसानों पर, शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के मोदी सरकार के संकल्प को और मजबूत करेगा।

भाजपा नेता भैया अभिमन्यु

सीपीआईएम नेता गणेश कुमार सीटू ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट कुर्सी बचाओ बजट है। इसमें 26000 करोड़ रुपये बिहार को और 15000 करोड़ रुपये आंध्र प्रदेश की राजधानी को चमकाने के लिए दिया गया है। बजट में झारखंड को सिर्फ एक मील के अंचल कुछ नहीं दिया गया है। बेरोजगारी और महंगाई से परेशान जनता के लिए कुछ नहीं है। सोना, चांदी को सस्ता किया गया पर आटा, अलुवा, दाल को सस्ता करने का कोई उपाय नहीं है। देश के बीमार सरकारी उद्योग जैसे एचवर्डीसी, बीएसएनएल, ओएनजीसी जैसे उद्योगों को बचाने का कोई उपाय नहीं है। इस बजट से देश की जनता निराश है। सरकार द्वारा लिया गया पूर्व के बजट में कई अधूरे कार्य अभी पूर्ण होने बाकी हैं, जिन पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन जैसे चीज बजट से गाबव है।

यह बजट सभी वर्ग के लोगों को राहत पहुंचाने वाला बजट है। इसमें खासकर विद्यार्थियों को 10 लाख तक का एजुकेशन लोन देने की बात कही गई है। किसानों का विशेष ख्याल रखा गया है। इस बजट से सभी वर्ग के लोगों को दूरगामी लाभ मिला।

भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद ने कहा कि आम बजट 140 करोड़ जनता के लिए काफी महत्वाकांक्षी तथा लाभकारी बजट है। इसमें गरीब, वंचित, गांव, शहर, महिला, बुजुर्ग, युवा तथा किसान के विषय में काफी कुछ सोचा गया है। यह बजट सभी वर्गों के लिए लाभकारी होगा और यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। बजट में ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे समग्र विकास होगा। बजट में छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शामिल की गई हैं, जिससे रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। कृषि क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद

## ब्रीफ खबरें

**चुटपालु घाटी में ट्रेलर ने 4 वाहनों में मारी टक्कर**  
रामगढ़। जिले के चुटपालु घाटी में एक ट्रेलर ने चार वाहनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गये। यह घटना मंगलवार को सुबह हुई है। जानकारी के अनुसार, ट्रेलर का ब्रेक फेल हो गया था, जिसकी वजह से चालक ने ट्रेलर पर नियंत्रण खो दिया और तीन गाड़ियों को टक्कर मार दी। इसके बाद एक बस से टक्कराकर रुक गया। इसकी वजह से रामगढ़ घाटी में वाहनों की लंबी कतार लग गयी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस घाटी से जाम हटाने में जुटी हुई है।

**युवक को भीड़ से बचा कर ले गई पुलिस**  
हजारीबाग। जिले के कोलंबस के पास एक महिला बात करते हुए जा रही थी कि अचानक एक बाइक सवार युवक ने उससे मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गया। हालांकि तत्काल दो युवकों ने पीछा कर जैन पैट्रोल पंप के पास आरोपी को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी कदमा निवासी सनी कुमार है। जांच में आरोपी के पास से महिला का मोबाइल मिला और एक अग्राची बाइक जब्त की गई। आरोपी को पकड़ने वाले युवक सत्यम तिवारी और अनीश यादव हैं।

**डीसी ने की राजस्व कार्यों की समीक्षा**  
रामगढ़। राजस्व संबंधित कार्यों को लेकर मंगलवार को उपायुक्त चंद्रन कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान उपायुक्त ने बंटवारा नामा एवं उत्तराधिकारी दाखिल खारिज कार्यों की समीक्षा के क्रम में सेवा का अधिकार अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए दाखिल खारिज संबंधित सभी मामलों को 90 दिन की अवधि के दौरान निष्पादित करने का निर्देश दिया। साथ ही खारिज संबंधित कार्यों में आ रही तकनीकी समस्याओं का हल करने का निर्देश दिया।

**मानदेय में 4 प्रतिशत वृद्धि पर बनी सहमति**  
चौपारण। प्रखंड की बछई पंचायत अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालयों में सेवारत सहायक अध्यापकों के मानदेय में 4 प्रतिशत वृद्धि पर मंगलवार को प्राधिकार कमिटी द्वारा सहमति प्रदान की गई। मुखिया बीरेंद्र रजक ने बताया कि जिला शिक्षा अधीक्षक हजारीबाग के निर्देशानुसार मंगलवार को पंचायत सचिवालय दैहर के सभागार में पंचायत प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार की बैठक प्राधिकार के अध्यक्ष मुखिया बीरेंद्र रजक की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

**अवैध बालू और पत्थर लदे वाहन किए जब्त**  
हजारीबाग। जिला खनन विभाग ने सोमवार की मध्य रात्रि दिगुमड़ा चौक के पास अवैध बालू लदे दो हाईवाजब किए गए। जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि इन दोनों वाहनों के पास खनिज ई-परिवहन चालान नहीं पाया गया है। इस संदर्भ में कोरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसी क्रम में पत्थर से लदे दो अन्य वाहनों को भी पकड़ा गया, उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

## एक जुलाई के अंक में शुभम संदेश में प्रकाशित खबर पर पुलिस ने लगाई मुहर

# पशु तस्कर निकला मिथुन बाबू

सदर थाने में झाड़वर रहा, अब मामला दर्ज कर तलाश कर रही चौपारण पुलिस

संवाददाता। हजारीबाग

सदर थाने में बतौर झाड़वर काम कर चुका मिथुन बाबू पशु तस्कर निकला। वह कोयला और बालू माफियाओं, ड्राम्स और पशु तस्करों सहयोग करता था। चौपारण पुलिस रविवार को शुभम संदेश में 1 जुलाई के अंक में प्रकाशित खबर पर मुहर लगा दी है। दरअसल, मिथुन बाबू शनिवार को अपने निजी वाहन की डिक्की में तीन अवैध पशु को मुंह बांधकर चौपारण होते हुए ले जा रहे थे। इसकी सूचना मिली तो थाना प्रभारी दीपक सिंह ने पुलिस बल के साथ गाड़ी को जब्त कर तीनों पशुओं को मुक्त करा दिया, जबकि गाड़ी चालक पुलिस देखकर फरार हो गया, लेकिन गाड़ी के नंबर ने मिथुन बाबू का राज खोल दिया और उसकी पहचान हो गई। अब पुलिस मिथुन बाबू पर चौपारण थाने में मामला दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है। इधर, मिथुन बाबू पर पशु तस्करों में नाम आते ही बजरंग दल के सदस्यों ने सोमवार देर शाम झंडा चौक पर उसका पुतला



बजरंग दल के लोगों ने मिथुन बाबू का पुतला दहन किया।

दहन किया, वे मिथुन बाबू को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। बजरंग दल का कहना है कि मिथुन बाबू पुलिस की गाड़ी चलाता था, गाड़ी में बैठकर पुलिस की वही दिखाता था और खुद को पुलिसकर्मी बताता था और शहर के विभिन्न कोनों में घूम कर माफियाओं को अपनी ऊंची पहुंच होने की बात कहता था। महर्गो कारों से पशुओं की तस्करी करता है मिथुन : दरअसल, मिथुन

## शुभम संदेश ने 1 जुलाई के अंक में की थी पड़ताल

बता दें कि शुभम संदेश ने 1 जुलाई के अंक में मिथुन बाबू की पड़ताल करती खबर प्रकाशित की थी, जिसका शीर्षक था, कौन है मिथुन बाबू? जो जिले में इन दिनों ड्राम्स, अफीम कोरेक्स, देह व्यापार, बालू माफिया, भू माफिया, कोयला माफिया को सहयोग करता है और पुलिस की कार्रवाई करने से पहले माफियाओं को जानकारी देता है। इसके बाद मिथुन बाबू की चर्चा जिले में खूब होने लगी। सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग मिथुन बाबू को जानना चाह रहे थे। कई लोग मीडिया पर भी सवाल उठा रहे थे और पूछ रहे थे कि आखिर मीडिया मिथुन बाबू की सच्चाई क्यों नहीं उजागर कर रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन भी मिथुन बाबू की सच्चाई सामने आने का इंतजार कर रहा था। पुलिस जानना चाह रही थी कि आखिर शहर में कौन है मिथुन बाबू, जो माफियाओं तक सूचना पहुंचाता है। और अंत में पुलिस ने मिथुन बाबू पहचान कर ली है।

अपराधियों को सूचना दे दिया करता था। इसके लिए उसे मोटी रकम मिलती थी। हालांकि इसकी भनक लगते ही कुछ महीने पहले उसे सदर थाने से डाटा दिया गया। इसके बाद वह बेरोजगार हो गया। इसके बाद वह से फिर माफियाओं का सहयोग करने लगा और अंततः खुद ही माफिया बन गया। बताया जाता है कि मिथुन बाबू के पास तीन महर्गो कारें हैं और इन्हीं कारों से वह पशुओं की तस्करी करता है।

## बिहार के एक फ़र्जी ई-चालान पर कई वाहनों से ठोया जा रहा बालू

संवाददाता। चौपारण

क्षेत्र में एनजीटी का आदेश लागू होने के बाद बिहार के बालू तस्करों की चांदी हो गयी है। मंगलवार को बिहार के फ़र्जी ई-चालान पर एक बालू लोड हाइवा अंचलाधिकारी संजय कुमार यादव ने ने जब्त कर इसका खुलासा कर दिया है। यादव ने कहा कि एनजीटी के आदेश के तहत बालू के उठाव व परिचालन की जांच करने का निर्देश जिला उपायुक्त हजारीबाग द्वारा जारी किया गया है। जांच के क्रम में हाइवा चालक से बालू का चालान मांगा गया, जिसकी जांच में पाया गया कि चालान में जो चैंसिस नंबर है, उससे अलग हाइवा का चैंसिस नंबर है। इस बात से स्पष्ट होता है कि एक ही चालान से कई वाहनों से बालू की दुलाई की जा रही है। साथ ही यादव ने कहा कि एनजीटी का आदेश लागू होने के बाद लाइसेंसधारी द्वारा डंप किया

## खास बातें

- सीओ ने एक बालू लदा हाइवा को जब्त कर किया खुलासा
- सीओ के घर पहुंच तस्करों ने दी धमकी, पुलिस हिरासत में

गया बालू का ही परिचालन किया जा सकता है, जबकि पकड़े गए हाइवा से नदी में तत्काल लोड किया गया बालू होने के कारण पानी गिर रहा था। यादव ने कहा कि पकड़े गए अवैध बालू लदा हाइवा को चौपारण पुलिस के हवाले कर दिया गया और जब हाइवा के कागजात को जिला खनन पदाधिकारी को करवाई के लिए अग्रसारित कर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि बालू की अवैध तस्करी के साथ एक ही चालान से कई वाहनों से बालू का परिचालन किसके इशारे और संरक्षण में किया जा रहा है।

## प्रखंड कार्यालय में अधिकारी लेते हैं रिश्वत और मुखिया होते हैं बदनाम

# भ्रष्ट अधिकारियों पर बरसे मुखिया

अधिकारी कूप निर्माण में 20 हजार अबुआ आवास में लेते हैं 10 हजार संवाददाता। हजारीबाग

जिले के इचाक प्रखंड में विभिन्न पंचायतों के मुखिया बीते दो दिन से धरने पर डटे हुए हैं। वे अब अधिकारियों पर हमलावर होने लगे हैं। वे कहते हैं कि मुखिया तो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें न वेतन मिलता है और न ही खर्च मिलता है, लेकिन अधिकारी अपने कार्यालय में बैठे-बैठे आम जनता की योजना को बेच रहे हैं। अबुआ आवास में लाभुक से खुलेआम 10 हजार और कूप निर्माण में 20 हजार लेकर ही वह योजना पास करते हैं और आम लोगों की नजर में बदनाम होते हैं मुखिया। सच्चाई यह है कि मुखिया रिश्वत लेकर नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव से काम करता है। उन्होंने यह भी बताया

हैं मुखिया भी बदनाम नहीं होंगे। मुखिया संघ ने कहा जब तक सरकार हमारी सात सूत्री मांगों को पूरा नहीं करती है, तब तक यह धरना समाप्त नहीं होगा। धीरे-धीरे पूरे हजारीबाग जिले के मुखिया धरने में शामिल होंगे और सभी अपने-अपने प्रखंड कार्यालय में धरने देंगे। वहीं सत्येंद्र मेहता ने कहा कि इचाक प्रखंड के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।

इचाक प्रखंड में धरने पर बैठे मुखिया को संबोधित करते वक्ता।

कि हम जनप्रतिनिधियों को अधिकारी इस्तेमाल करते हैं और सवे करवाते हैं, हमसे लाभुकों के कागजात भी लेते हैं, अपने ऑफिस के छोटे-छोटे कर्मचारियों को भेज कर लाभुक से पैसा मंगवाते हैं और योजना पास करते हैं। इन अधिकारियों कि अगर उच्च अधिकारियों से प्रखंड कार्यालय की जांच हो तो अधिकारियों की सच्चाई सामने आ जाएगी। इसके साथ

हड़ताल पर हैं। ऐसे में भारी बरसात में अधूरे कूपों का निर्माण पूरा होने से पहले धंसने का खतरा बना हुआ है। इससे लाभुकों के साथ सरकार को भी लागभग 104 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। यहां तक कि मनरेगा से चल रहे अबुआ आवास, मेड बंदी, टीसीपी, वाटर रिचार्ज जैसे कई कार्य प्रखंड में चल रहे थे, जो बाधित हो गए हैं। इसके कारण मजदूरों को भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है।

## विष्णुगढ़ के प्रवासी मजदूर की करंट लगने से केरल में मौत

दो दिन के अंदर विष्णुगढ़ में दो प्रवासी मजदूरों की हो गई मौत संवाददाता। विष्णुगढ़

विष्णुगढ़ में दो दिन के अंदर दो प्रवासी मजदूरों की मौत हो चुकी है। सोमवार को प्रखंड अंतर्गत चौथा निवासी जीवलाल साव (55) का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा। वहीं दूसरे दिन प्रखंड के खरना के प्रवासी मजदूर सुरेश महतो (25) की लाश पहुंची। जीवलाल साव की मौत मुंबई में हुई, जबकि सुरेश की मौत केरल के कोल्लम में हुई। इस तरह रोजी-रोटी कमाने जाने वाले झारखंड के प्रवासी मजदूरों की मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। मृतक केरल राज्य इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड कोल्लम में कार्यरत एसबीआर कंपनी का कामगार था। उसकी मौत काम के दौरान करंट लगने से हो गयी। रोजी रोजगार के सिलसिले में वे वहां पहुंचे थे। सुरेश पर अपने परिवार की जिम्मेदारी थी।



प्रवासी मजदूर का फाइल फोटो।

मौत की सूचना मिलते ही परिजनों का बुरा हाल हो गया है। परिवार के एक माऊ कमाऊ सदस्य की मौत से परिवार पर गमों का पहाड़ टूट गया है। इसकी सूचना मिलते ही परिजनों को डॉस बंधाने झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय संगठन मंत्री महेंद्र प्रसाद महतो उर्फ माही पटेल अपने संगठन के साथियों के साथ मुतक के घर पहुंचे। साथ ही जंबीकेएसएस की तरफ से हरसंभव मदद का भरोसा दिया।

## किचन शेड में डीप बोरिंग की जगह करंट दी साधारण बोरिंग

बीडीओ ने लिया सज्ञान तो बोरिंग मशीन लेकर भागा ठेकेदार

संवाददाता। चौपारण

प्रखंड की बच्छई पंचायत के प्राथमिक विद्यालय सेवई में किचन शेड का निर्माण मनमाने तरीके से किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को साधारण चापानल की बोरिंग की जाने लगी। इसकी जानकारी प्रधानाध्यक्षिक हेमलता देवी ने मुखिया बिरेंद्र रजक को दी। मुखिया ने कनीय अभियंता मुकेश कुमार से कहा कि ठेकेदार किचन शेड मनमाने तरीके से बना रहा है और डीप बोरिंग की जगह पर साधारण बोरिंग कर रहा है। वहीं ठेकेदार राज सागर का कहना है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। मुखिया संघ अध्यक्ष रजक ने



ठेकेदार की बात सुनकर कहा कि लगता है कि चौपारण में लूट की छूट मिल गई है। मुखिया ने इस बात की जानकारी बीडीओ सीमा कुमारी को दी। बीडीओ ने जेई को स्थल पर जाकर निरीक्षण करेंगे और गलत पाए जाने पर करवाई करेंगे। इस पर ठेकेदार बोरिंग मशीन लेकर भाग गया। बीडीओ ने कहा कि प्राक्कलन से हट कर कोई भी ठेकेदार काम करेगा तो उसकी राशि काट कर भुगतान करवाने की अनुरोध कर जिला प्रशासन को भेजा जाएगा।

## डीसी ने तीर्थ दर्शन योजना के तहत यात्रियों को किरा रवाना

संवाददाता। रामगढ़

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत मंगलवार को उपायुक्त चंद्रन कुमार ने जिले के विभिन्न प्रखंडों से कुल 33 बीपीएल हिंदू धर्म धर्मावलंबियों को द्राक्का एवं सोमनाथ तीर्थ यात्रा के लिए जिला समाहरणालय परिसर से रवाना किया। उन्होंने अधिकारियों को सफलतापूर्वक तीर्थ यात्रा संपन्न कराने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान चित्तपुर प्रखंड से 6, पतरातू प्रखंड से 3, गोला प्रखंड से 10, मांडू प्रखंड से 14 यात्री द्राक्का

एवं सोमनाथ तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए। सभी यात्री समाहरणालय से विशेष खनन द्वारा हटिया रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुए जहां से उन्हें विशेष ट्रेन द्वारा यात्रा कराई जाएगी। दो नोडल अधिकारी मांडू एवं सहीदु कुमार कोऑर्डिनेटर कालू एवं संधु कुमार जन सेवक पतरातू तीर्थ यात्रियों के साथ रहेंगे। मौके पर उप विकास आयुक्त रोबिन टोपों, जिला खेल पदाधिकारी सह पर्यटन नोडल पदाधिकारी मारकस हेबम, एएसएमपीओ विक्रम सोनी, भोलानाथ, प्राकाश सहित अन्य उपस्थित थे।

## मुखिया सकीबा खातून जमीन वापसी को लेकर मंत्री से मिलीं

संवाददाता। केरेडारी

प्रखंड की पाण्डू पंचायत की मुखिया सकीबा खातून ने झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी से मिलकर पाण्डू क्षेत्र में डुमरी कोल ब्लॉक द्वारा अधिग्रहित जमीन भू रैयतों को वापस कराने की मांग की है। इस बाबत मुखिया ने मंत्री को दिए लिखित ज्ञापन में कहा है कि पांडू पंचायत क्षेत्र में नीलांचल आयन पावर लिमिटेड द्वारा नौकरी के नाम पर फर्जी तरीके से जमीन अधिग्रहित की गई थी। इसके

एवज में नौकरी का झांसा दिया गया था। वर्ष 2008 में नीलांचल आयन पावर लिमिटेड द्वारा जमीन ली गई थी, लेकिन आजकल उपरोक्त कंपनी द्वारा खनन कार्य नहीं किया जा सका। कंपनी द्वारा 3 लाख 85 हजार रुपये दर से प्रति एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। कंपनी द्वारा ना ही खनन कार्य शुरू किया गया और न ही नौकरी दी गई। कंपनी द्वारा 20 प्रतिशत जमीन अधिग्रहित की गई है, जो खेती योग्य भूमि है और कुछ भाग पर काफी संख्या में मकान बने हुए हैं।

**गोवा शिपयार्ड ने किया जलावतरण, हमारी नौसेना किसी भी देश की चुनौती का सामना करने और अपने देश की संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम : राज्यपाल**

## नौसेना के लिए अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित 'त्रिपुट' युद्धपोत का जलावतरण

एजेंसी। पणजी

वास्को स्थित गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) ने भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे दो 'पी11356 युद्धपोत' में से पहले युद्धपोत 'त्रिपुट' का मंगलवार को जलावतरण किया। यह युद्धपोत अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित है। गोवा के राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने युद्धपोत का जलावतरण किया, जबकि उनकी पत्नी रीता पिल्लई ने इसे 'त्रिपुट' नाम दिया। नौसेना के उपप्रमुख वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कर्मांडो-इन-चीफ वाइस एडमिरल संजय सिंह, भारतीय नौसेना के युद्धपोत उत्पादन एवं अधिग्रहण के नियंत्रक वाइस एडमिरल बी. शिवकुमार और अक्सर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में शामिल थे। राज्यपाल पिल्लई ने कहा, "हमारी



नौसेना किसी भी देश की चुनौती का सामना करने और अपने देश की संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम है। भारतीय नौसेना की भूमिका दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है।" उन्होंने कहा, "आज के बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में, राष्ट्र कई चुनौतियों का सामना करते हैं। युद्धपोत का जलावतरण हमारे हितों की रक्षा के लिए देश की तैयारियों और प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रदर्शन है।"

पिल्लई ने कहा कि स्थानीय परिस्थितियों में बदलाव के बीच इस जहाज का जलावतरण एक मजबूत संदेश भेजता है कि हमारा देश शांति एवं स्थिरता के अलावा अपनी अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "यह किसी भी क्षेत्रीय आक्रमण का जवाब देने के लिए तैयार एक मजबूत और सक्षम रक्षा बल बनाए रखने के हमारे दृढ़ समर्पण को दर्शाता है।"

### पहली बार किया इतने बड़े जहाज का निर्माण

वाइस एडमिरल स्वामीनाथन ने कहा कि "चूंकि, भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले बल और पसंदीदा सुरक्षा भागीदार के रूप में उभर रही है तथा समुद्री विविधता बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, इसलिए उसे आधुनिक बनाना और हमेशा सर्वोत्तम साधनों, हथियारों व सेंसर से लैस करना अहम है।" वाइस एडमिरल स्वामीनाथन ने कहा कि इस जहाज का नाम त्रिपुट रखा गया है, जो भारतीय नौसेना की शक्तिशाली तलवार और प्रतीकात्मक अद्वय सहस्र और दृढ़ संकल्प तथा हमला करने की क्षमता के कारण रखा गया है। जीएसएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कृष्णा कुमार् उपाध्याय ने कहा कि शिपयार्ड अपने 67 साल पुराने इतिहास में पहली बार इतने बड़े जहाज का निर्माण कर रहा है।

### नौसेना प्रमुख ने आईएनएस ब्रह्मपुत्र को हुई क्षति का लिया जायजा

मुंबई। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने मंगलवार को मुंबई गोदी में जाकर युद्धपोत आईएनएस ब्रह्मपुत्र को हुए नुकसान का जायजा लिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दो दिन पहले अग्रिम मोर्चे पर सेवा देने वाले युद्धपोत पर आग लग गई थी। अधिकारी ने बताया, "नौसेना प्रमुख ने बल की गोदी का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने युद्धपोत की मरम्मत के लिए उठाए जाने वाले अगले कदम पर भी चर्चा की।" युद्धपोत में आग लगने के बाद से उस पर सवार एक नाविक लापता है। पोत मुंबई की नौसेना गोदी में है। अधिकारी ने बताया कि बहुदेशीय युद्धपोत पर 21 जुलाई को शाम को आग तब लगी जब मुंबई की गोदी में उसका मरम्मत कार्य चल रहा था। नौसेना ने इससे



पहले बताया था कि युद्धपोत पर मौजूद चालक दल और गोदी में तैनात दमकल कर्मियों एवं वहां मौजूद अन्य जहाजों की मदद से 22 जुलाई की सुबह आग पर काबू पाया जा सका। इसके बाद आग के संभावित खतरों का आकलन और सफाई का कार्य शुरू किया गया। अधिकारी ने बताया कि आग से युद्धपोत सोमवार दोपहर एक तरफ (बंदरगाह की ओर) झुक गया

### ब्रह्मपुत्र को हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा

पणजी। नौसेना के उपप्रमुख वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने मंगलवार को कहा कि आग लगने के बाद एक तरफ झुक रहे स्वदेशी युद्धपोत 'आईएनएस ब्रह्मपुत्र' को सीधा किया जा सकता है और घटना में हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा। नौसेना ने एक विज्ञापित में बताया था कि मुंबई नौसेना डॉकयार्ड में खड़े बहुदेशीय युद्धपोत 'आईएनएस ब्रह्मपुत्र' पर 21 जुलाई की शाम को मरम्मत कार्य के दौरान आग लग गई थी। इसमें बताया गया था कि युद्धपोत के चालक दल ने डॉकयार्ड में तैनात दमकल कर्मियों और वहां खड़े अन्य जहाजों के कर्मचारियों की मदद से सोमवार सुबह तक आग पर काबू पा लिया गया था।

### ब्रीफ खबरें

#### माली में हिंसक हमले में 26 ग्रामीणों की मौत

बामाको। बुर्किना फासो की सीमा के समीप माली के मध्य क्षेत्र के एक गांव पर एक सशस्त्र समूह द्वारा किए गए हमले में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई। वैकोम करुबे के मेयर मौलाये गुईडो ने बताया कि डेंबो गांव में हमलावरों ने रविवार शाम को ग्रामीणों पर उस समय हमला कर दिया, जब उनमें से अधिकतर लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे। देश की सैन्य सरकार उत्तरी क्षेत्र में हिंसा को रोकने के लिए संघर्ष कर रही है। इसके पीछे अल-कायदा से जुड़े चरमपंथी संगठन 'जेएनआईएम' का हाथ माना जा रहा है जो क्षेत्र के ग्रामीणों को अक्सर निशाना बनाता है।

#### कोलंबिया में सांडों की लड़ाई पर लगा प्रतिबंध

बोगोटा। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेद्रो ने इस दक्षिण अमेरिकी देश में सांडों की लड़ाई पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान वाले विधेयक पर सोमवार को हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही दुनियाभर में उन देशों की संख्या और कम हो गई, जहां सड़ियों पुरानी यह परंपरा अब भी वैध है। बोगोटा में सांडों के अखाड़े में आयोजित एक समारोह के दौरान सांड जैसी पोशाक पहने एक समर्थक ने पेद्रो को विधेयक की प्रति सौंपी, जिस पर उन्होंने सैंकडों पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के सामने हस्ताक्षर किए। कई महीनों की तीखी बहस के बाद मई में कोलंबिया की संसद ने सांडों की लड़ाई पर प्रतिबंध लगाए जाने को मंजूरी दे दी थी।

#### 'अश्लील सामग्री' पर नेटफ्लिक्स को समन

नयी दिल्ली। बाल अधिकारों की शीर्ष निकाय एनसीपीसीआर ने नेटफ्लिक्स के अधिकारियों को उनके मंच पर कथित तौर पर 'अश्लील सामग्री' नाबालिगों तक सुलभ होने के मामले में सोमवार को तलब किया है। नेटफ्लिक्स की ओर से इस मामले में तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने मंगलवार को नेटफ्लिक्स के अधिकारियों को भेजे पत्र में कहा, "नेटफ्लिक्स पर नाबालिगों तक 'अश्लील सामग्री' की बिना रोक टोक पहुंच' यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉसो) अधिनियम-2012 का उल्लंघन है।"

### वर्षों से जारी मतभेद खत्म : बीजिंग में घोषणा पत्र पर किए हस्ताक्षर

## फलस्तीनी क्षेत्र में हमारास व फतह की 'संयुक्त सरकार'

एजेंसी। रामल्ला (वेस्ट बैंक)

गाजा पट्टी में गहराते युद्ध संकट के बीच फलस्तीन के प्रतिद्वंद्वी समूहों हमारास और फतह ने वर्षों से जारी आपसी मतभेदों को खत्म करने के लिए बीजिंग में घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। चीन के सरकारी मीडिया ने मंगलवार को यह जानकारी दी। गाजा पट्टी में गहराते युद्ध संकट के बीच यह घोषणापत्र फलस्तीनी क्षेत्र में मिलकर सरकार बनाने के मकसद से हमारास और फतह को एकजुट करने के लिए जारी कई दौर की बातचीत का नतीजा है। हालांकि, दोनों पक्ष आपसी मतभेद दूर करने के लिए पहले भी कई ऐसे घोषणापत्र पर दस्तखत कर चुके हैं, जो विफल रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या चीन प्रायोजित वार्ता से वास्तव में कोई समाधान निकल सकता है।

इस घोषणापत्र पर ऐसे समय में हस्ताक्षर किए गए हैं, जब इजराइल और हमारास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थित संघर्ष-विराम प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, जो गाजा पट्टी में नौ महीने से जारी युद्ध को समाप्त कर सकता है और हमारास द्वारा



चीन के विदेश मंत्री वांग यी (बीच में) फतह के उपाध्यक्ष महमूद अल-अलौल और हमारास के एक वरिष्ठ सदस्य, प्रेड

#### इजराइल ने समझौते को किया खारिज, कहा- कोई संयुक्त शासन नहीं होगा

सीसीटीवी के मुताबिक, इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काटज ने मंगलवार को इस समझौते को खारिज कर दिया और कहा कि गाजा में हमारास एवं फतह का कोई संयुक्त शासन नहीं होगा। 'क्योंकि हमारास के शासन को कुचल दिया जाएगा।' चीनी मीडिया के मुताबिक फलस्तीन के दोनों प्रतिद्वंद्वी समूहों ने 12 अंतरराष्ट्रीय गुटों के साथ चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की और इसके साथ ही रविवार को शुरू हुई

बंधक बनाए गए इजराइली नागरिकों की आजादी का रास्ता खोल सकता है। हालांकि, समझौते पर सहमति बनने के बावजूद युद्ध

के बाद गाजा पट्टी की स्थिति को लेकर संशय बरकरार रहेगा, क्योंकि इजराइल इस क्षेत्र के शासन में हमारास को किसी भी भूमिका के

खिलाफ है। उसने गाजा को फतह-प्रभुत्व वाले फलस्तीनी प्राधिकरण द्वारा संचालित करने के अमेरिका के आह्वान को भी खारिज कर दिया है।

### दिल्ली हाईकोर्ट ने 38 पन्नों के अपने आदेश में दिल्ली पुलिस पर की सख्त टिप्पणी

## राष्ट्रगान गाने को मजबूर किए गए युवक की मौत मामले की जांच सीबीआई करेगी

एजेंसी। नयी दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 23 वर्षीय एक युवक की मौत से संबंधित मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दिया, जिसे 2020 में शहर के उत्तर पूर्वी हिस्से में हुए दंगों के दौरान कथित तौर पर पीटा गया और राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया गया था। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर व्हापक रूप से प्रसारित हुआ था। फ्लैग की मां ने मामले की विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने के लिए याचिका दायर की थी। इस पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि अभी तक



पहचाने नहीं गए पुलिसकर्मियों पर 'धार्मिक कट्टरता से प्रेरित' होकर मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन करने का आरोप है। यह तथ्य कि अपराधी स्वयं जांच एजेंसी के सदस्य हैं, भरोसा पैदा नहीं करता है। न्यायमूर्ति भंभानी ने टिप्पणी की कि पुलिस जांच के दौरान घृणा अपराधों से तत्परता से निपटने के उच्चतम न्यायालय के फैसले की भावना

को पूरा नहीं किया गया है। अदालत ने कहा, 'घृणा-अपराध की घटनाओं को रोकने के बजाय वर्तमान मामले में कुछ पुलिसकर्मियों याचिकाकर्ता के बेटे के खिलाफ भीड़-हिंसा में संलिप्त पाए गए हैं। इन परिस्थितियों में, यह अदालत याचिका का निस्तारण करने को सहमत है और निर्देश देती है कि मामले की जांच तत्काल कानून के तहत आगे की जांच के लिए सीबीआई, नयी दिल्ली को हस्तांतरित कर दी जाएगी।' अदालत ने अपने 38 पन्नों के आदेश में कहा कि दिल्ली पुलिस ने अब तक जो कुछ किया है, वह 'बहुत कम और बहुत देर से किया गया' है। उसकी अब तक की जांच में भी कई विसंगतियां और भ्रष्टाचार हैं।

### मादक पदार्थ मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी पर भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने

## आरोपी भाजपा के शीर्ष नेताओं का करीबी : कांग्रेस

■ भाजपा सरकार के लिए अपराधी, अपराधी होता है : भाजपा

एजेंसी। सूरत

गुजरात में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सूरत में मादक पदार्थ के एक मामले में पकड़ा गया व्यक्ति राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष सी आर शारिल समेत सत्तारूढ़ पार्टी के कई शीर्ष नेताओं का करीबी है जिसके बाद दोनों दलों के बीच राजनीतिक खींचतान शुरू हो गयी है। कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने कहा कि मादक पदार्थ के तस्कर की गिरफ्तारी दिखाती है कि उसकी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में पुलिस की मादक पदार्थ के मुद्दे पर



इस तस्करि में पकड़ा गया भाजपा नेता विकास अहीर योगी आदित्यनाथ के साथ।

बिल्कुल न बर्दाश्त करने की नीति है और दौधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी चाहे उनका कोई भी राजनीतिक संबंध हो. सूरत के पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह महलोल ने कहा कि एक खुफिया सूचना के आधार पर

सूरत पुलिस ने सोमवार को शहर के सलाबतपुरा इलाके में एक होटल पर छापा मारा और तीन लोगों को पकड़ा. पुलिस ने उनके पास से 35.49 लाख रुपये की 910 ग्राम मेफेड्रोन दवा बरामद की.

### सांघवी, पाटिल व योगी आदित्यनाथ के साथ की कई तस्वीरें जारी

अहीर की गिरफ्तारी के बाद सूरत के असलम साइकिलवाला सहित कई कांग्रेस नेताओं ने कई तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें अहीर को सांघवी, पाटिल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ देखा जा सकता है। कांग्रेस की गुजरात इकाई ने फेसबुक पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि अहीर भाजपा के सदस्य था और उसने पूछा कि क्या वह गांधीनगर में भाजपा के प्रदेश मुख्यालय 'कमलम' में बैठे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को 'कमीशन' दिया करता था?

### अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डेमोक्रेटिक पार्टी के 2,579 'डेलीगेट' का समर्थन मिला : एपी सर्वेक्षण

## कमला हैरिस की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी लगभग तय

एजेंसी। वाशिंगटन

#### डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को पीछे ले जाना चाहते हैं : कमला हैरिस



के नाम का अनुमोदन किया. बाइडन के राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर होने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख नेता हैरिस के समर्थन में तत्काल हो खड़े हो गए और उनके प्रचार अभियान ने 24 घंटे में चंडा एकत्र करने का नया रिकॉर्ड बनाया. हैरिस को सोमवार रात तक कम से कम

2,579 'डेलीगेट' का समर्थन प्राप्त हो चुका था, जबकि पार्टी उम्मीदवार बनने के लिए 1,976 'डेलीगेट' की आवश्यकता होती है. एपी की यह गणना व्यक्तिगत 'डेलीगेट' के साक्षात्कारों, हैरिस को समर्थन देने की घोषणा करने वाले राज्य स्तरीय दलों के सार्वजनिक बयानों और

व्यक्तिगत 'डेलीगेट' के सार्वजनिक तौर पर दिए बयानों के आधारित है. **बाइडन कमला के लिए प्रचार करेंगे:** वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने नवंबर में प्रस्तावित राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से पीछे हटने के अपने फैसले को सोमवार को 'सही कदम' करार दिया. उन्होंने

#### जेडी वेंस ने कमला हैरिस पर किए तीखे हमले

रेडफोर्ड (अमेरिका)। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस ने सोमवार को अपनी शुरुआती चुनावी रैलियों में मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर तीखे हमले किए. वेंस ने वर्जीनिया में कहा, 'इतिहास जो खंडन को मैदान छोड़ने वाले व्यक्ति के साथ ही अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा राष्ट्रपतियों में से एक के रूप में याद रखेगा, लेकिन मेरे दोस्तों, कमला हैरिस उनसे भी लाख गुना बदतर है और यह बात हर कोई जानता है. उन्होंने जो बाइडन की हर विफलता पर मुहर लगायी है और उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम करने की उनकी (बाइडन) मानसिक क्षमता के बारे में झूठ बोला है.'

कहा कि कोविड-19 संक्रमण के चलते वह अभी लोगों के बीच नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन वह जल्द ही उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे. बाइडन ने गार रविवार को राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर होने की घोषणा करते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ

से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए भारतीय-अफ्रीकी मूल की कमला हैरिस (59) के नाम की सिफारिश की थी. अपनी पूर्व प्रचार टीम को फोन पर संबोधित करते हुए बाइडन ने इसके सदस्यों को उपराष्ट्रपति कमला को 'दिल से अपना' का आग्रह किया.

### इथियोपिया में भूस्खलन में बच्चों समेत कम से कम 157 की मौत

■ मलबे से पांच लोगों को जीवित निकाला गया, कई लापता

एजेंसी। अदीस अबाबा

इथियोपिया के एक दूरस्थ क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में कम से कम 157 लोगों की मौत हो गयी. स्थानीय प्रशासक दागामबी आयेले ने बताया कि दक्षिणी इथियोपिया के कैजो शाचा गोजदी जिले में मिट्टी धंसने की घटना में मारे गए लोगों में बच्चे और गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। गोफा जोन के संचालन कार्यालय के प्रमुख कासाहुन अवेयनेह ने बताया कि इलाके में तलाश अभियान जारी रहने के कारण मृतकों की संख्या मंगलवार को बढ़कर 157 हो गयी. सोमवार रात तक 55 लोगों की मौत की सूचना थी.



गोफा जोन वह प्रशासनिक इलाका है जहां भूस्खलन हुआ है. ज्यादातर लोग सोमवार सुबह हुए भूस्खलन में दब गए. उस समय बचावकर्मों एक दिन पहले हुए एक अन्य भूस्खलन के बाद पीड़ितों की तलाश कर रहे थे. आयेले ने बताया कि मलबे से पांच लोगों को जीवित निकाला गया. गोफा में एक अन्य अधिकारी मार्कोस मेलेसी ने बताया कि अन्य मृतकों की संख्या मंगलवार को बढ़कर 157 हो गयी. सोमवार रात तक 55 लोगों की मौत की सूचना थी.